



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2005 (अग्रहायण 5, 1927)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2005 (AGRAHAYANA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2005

सं. 556, दिनांक 26 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

विशेष सूची

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

हरीश चन्द्र (सं. 15373052 के अब जेसी-449708एक्स), 19 फरवरी 2005

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

गोपाल शर्मा (जेसी-459453 डब्ल्यू), 11 जून 2005

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 557, दिनांक 26 अक्टूबर 2005—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

विनोद कुमार त्रिपाठी (जेसी-420269पी), 20 अगस्त 2005

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक के लिए

सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-217926वाई), 01 मई 2005

सूबेदार कीर्ति वल्लभ (जेसी-402170 डब्ल्यू), 01 जून 2005

सूबेदार विरेन्द्र कुमार (जेसी-402209एक्स), 01 जून 2005

सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-402001पी), 01 जून 2005

सूबेदार रति राम योगी (जेसी-222598ए), 04 जुलाई 2005×

× (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार राजेन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-222599एच), 27 जुलाई 2005×
 ×(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक के लिए

नायब सूबेदार सोबन सिंह (जेसी-403072एच), 25 मई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कवर सिंह (जेसी-403183ए), 29 दिसम्बर 2004×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-403011एल), 10 मई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जनवरी 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बेद राम (जेसी-403108डब्ल्यू), 02 मार्च 2005

नायब सूबेदार भानु सिंह गुर्जर (जेसी-403109वाई), 10 मई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार प्रेम लाल (जेसी-403123एल), 03 मार्च 2005

नायब सूबेदार भगवान राम बिशनोई (जेसी-403285डब्ल्यू), 19 मई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम कृपाल (जेसी-403249एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद (जेसी-403270एन), 03 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-403177एम), 24 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-403003एम), 11 जून 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गणेश चन्द (जेसी-402812ए), 01 मई 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-402817वाई), 21 मई 2005

नायब सूबेदार चाप सिंह (जेसी-402910ए), 22 मई 2005

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-403059वाई), 01 जून 2005

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-403271डब्ल्यू), 01 जून 2005

नायब सूबेदार फूल चन्द जाट (जेसी-403104ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-403256एफ), 01 जून 2005

नायब सूबेदार अभय राम यादव (जेसी-403278ए), 01 जून 2005

नायब सूबेदार शिव बहादुर यादव (जेसी-402532एम), 22 जुलाई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सुबे सिंह (जेसी-403124एन), 05 जून 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्दर (जेसी-403118ए), 05 जून 2005

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-403125डब्ल्यू), 05 अगस्त 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार अमर चन्द्रा (जेसी-403052पी), 22 जुलाई 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मोहन चन्द (जेसी-403267एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-403167एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जेसी-403188वाई), 09 अगस्त 2005×
 ×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार श्याम बाबू (जेसी-403259पी), 01 अगस्त 2005

जोस थोमस
 अवर सचिव

सं. 558, दिनांक 26 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार रणजीत कुमार सिंह (सं. 4266149के अब जेसी-559441डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2005/09 फरवरी 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार जीतेश्वर नायक (सं. 4261190डब्ल्यू अब जेसी-559442वाई), 20 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार मंगल साँगा (सं. 4262559एच अब जेसी-559443एफ), 13 जून 2005/01 मई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम बाबू ठाकुर (सं. 4260353एम अब जेसी-559444के), 05 मई 2005/16 जुलाई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 16 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुदर्शन पॉल (सं. 4262576एच अब जेसी-559445एम), 11 मई 2005/01 मई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार लालीन्द्र खलखो (सं. 4264933वाई अब जेसी-559446पी),
16 मई 2005/01 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार मथिरा किसपोत्ता (सं. 4266835एक्स अब जेसी-559447एक्स), 16 मई 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार वीरेन्द्र नाथ सिंह (सं. 4261801ए अब जेसी-559448ए),
16 मई 2005/01 मई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार दिगम्बर नायक (सं. 4263229डब्ल्यू अब जेसी-559449एच),
17 मई 2005/01 नवम्बर 2004(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार जननारंजन नायक (सं. 4262574एक्स अब जेसी-559450एक्स), 17 मई 2005/09 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार भगवान महाराना (सं. 4266154पी अब जेसी-559451ए),
18 मई 2005/01 मार्च 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम पदार्थ सिंह (सं. 4260564पी अब जेसी-559452एच),
21 मई 2005/17 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 17 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार सत्य नारायण प्रसाद (सं. 4262913एम अब जेसी-559453एल),
30 मई 2005/27 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सोम्रा ताना भगत (सं. 4266460के अब जेसी-559454एन),
01 जून 2005/19 मार्च 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार हीरा लाल यादव (सं. 4264193डब्ल्यू अब जेसी-559455डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार विद्या नन्द प्रसाद यादव (सं. 4262095डब्ल्यू अब जेसी-559456वाई), 01 जून 2005

हवलदार सिमांचल बेहरा (सं. 4266151एफ अब जेसी-559457एफ),
02 जून 2005/30 जनवरी 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 30 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार पास्कल टोपो (सं. 4262171एक्स अब जेसी-559458के),
10 जून 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार गुहि राम मुर्मू (सं. 4266393के अब जेसी-559459एच),
10 जून 2005/12 जनवरी 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार नागेश्वर कुमार यादव (सं. 4261153एच अब जेसी-559460एफ), 16 जून 2005/01 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार शम्भू शरण सिंह (सं. 4262394पी अब जेसी-559461के),
29 जून 2005/19 मार्च 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 19 मार्च 2005 से दी जाती है।)

हवलदार सर्वेश्वर जेना (सं. 4262855एन अब जेसी-559462एम),
01 जुलाई 2005/01 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

हवलदार बिरूवल किष्णोत्ता (सं. 4263991डब्ल्यू अब जेसी-559463पी), 01 जुलाई 2005/01 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

हवलदार भजगोविन्दा दास (सं. 4262837एल अब जेसी-559464एक्स), 14 जून 2005/01 मई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार मनोरंजन खाखा (सं. 4265238डब्ल्यू अब जेसी-559465ए),
04 जुलाई 2005/20 मई 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 मई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार राम खतेश तिवारी (सं. 4262069पी अब जेसी-559466एच), 07 जुलाई 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार एलेक्जेंडर मिंज (सं. 4262094एन अब जेसी-559467ए),
05 जुलाई 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता) *

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार नवीन प्रसाद (सं. 4261664एफ अब जेसी-559468एन),
04 जुलाई 2005/01 जून 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार (जी.डी.)/लिपिक के रैंक में

हवलदार बिजुएल लकरा (सं. 4262107ए अब जेसी-559428एम),
11 फरवरी 2005/01 नवम्बर 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार सदानन्दा सोरेन (सं. 4264747एच अब जेसी-559429पी),
07 मार्च 2005/08 नवम्बर 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 08 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार श्रीचरण मोहापात्रा (सं. 4262731वाई अब जेसी-
559430के), 17 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार/लिपिक कामेश्वर गोस्वामी (सं. 4264228ए अब जेसी-
559431एम), 21 मार्च 2005/28 फरवरी 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 28 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार अनूप चन्द मेरावी (सं. 4266378पी अब जेसी-559432पी),
24 मार्च 2005/01 नवम्बर 2004 (ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार कृष्णा चन्द्र परीछा (सं. 4260830एच अब
जेसी-559433एक्स), 30 मार्च 2005/12 मार्च 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 12 मार्च 2005 से दी जाती है।)

हवलदार रणजीत मिंज (सं. 4263004एन अब जेसी-559434ए),
01 अप्रैल 2005/13 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 13 सितम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार शिव मुनी सिंह (सं. 4260976डब्ल्यू अब जेसी-559435एच),
07 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार चुड़ामनी बाग (सं. 4266676एल अब जेसी-559436एल),
08 अप्रैल 2005/12 जनवरी 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जयमंगल साव (सं. 4260882वाई अब जेसी-559437एन),
16 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2004(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जयमंगल ओरॉव (सं. 4265858वाई अब जेसी-
559438डब्ल्यू), 20 अप्रैल 2005/20 नवम्बर 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 20 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार महेश कुमार सिंह (सं. 4261473एक्स अब जेसी-
559439वाई), 27 अप्रैल 2005/05 अप्रैल 2005(ज्येष्ठता)*

*(वेतन और भत्ता पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 05 अप्रैल 2005 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार के रैंक (धर्म शिक्षक "पण्डित")

राम जश त्रिपाठी (जेसी-559377के), 11 दिसम्बर 2004

बाल कृष्ण पाण्डेय (जेसी-559401पी), 11 जून 2005

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्दन सिंह (सं. 3177887एच अब जेसी-489696डब्ल्यू),
02 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार आसु राम चौधरी (सं. 3179752ए अब जेसी-489697वाई),
04 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पीता राम (सं. 3179768एल अब जेसी-489698एफ),
01 मई 2005

हवलदार गिरधारी राम (सं. 3179772एन अब जेसी-489699के),
01 मई 2005

हवलदार टीकम सिंह (सं. 3179978एल अब जेसी-489700एन),
01 मई 2005

हवलदार विजय कुमार (सं. 3177888एल अब जेसी-489701डब्ल्यू),
01 जून 2005

हवलदार मदन सिंह (सं. 3175709एफ अब जेसी-489702वाई),
01 जुलाई 2005

हवलदार रोहिताश्वा कुमार जाखड (सं. 3179912पी अब
जेसी-489703एफ), 02 जुलाई 2005

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 3180794वाई अब जेसी-489704के),
24 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3182135एच अब जेसी-489705एम),
02 जुलाई 2005

हवलदार श्री भगवान (सं. 3180574पी अब जेसी-489706पी),
02 जुलाई 2005

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 3177895एफ अब जेसी-489707एक्स),
04 जुलाई 2005

हवलदार जीना राम (सं. 3175202ए अब जेसी-489708ए),
05 जुलाई 2005

हवलदार धोकल राम (सं. 3175410पी अब जेसी-489709एच),
05 जुलाई 2005

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 3175415एन अब जेसी-489710एक्स),
05 जुलाई 2005

हवलदार होशियार सिंह (सं. 3179422एफ अब जेसी-489711ए),
08 जुलाई 2005

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 3179430ए अब जेसी-489712एच),
08 जुलाई 2005

हवलदार हरेन्द्र सिंह (सं. 3175538ए अब जेसी-489713एल), 09
अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 3175552एम अब जेसी-489714एन),
01 अगस्त 2005

हवलदार अनार सिंह (सं. 3175147पी अब जेसी-489715डब्ल्यू),
01 अगस्त 2005

हवलदार राजा राम गुजर (सं. 3176975एम अब जेसी-489716वाई),
01 अगस्त 2005

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 3175175एफ अब जेसी-489717एफ),
07 अगस्त 2005

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं. 3175793एम अब जेसी-489718के),
10 अगस्त 2005

हवलदार रनजीत सिंह जाट (सं. 3175157वाई अब जेसी-
489719एम), 10 अगस्त 2005

हवलदार वीरेन्द्र सिंह (सं. 3177631ए अब जेसी-489720एफ),
21 अगस्त 2005

हवलदार सोमवीर (सं. 3185882वाई अब जेसी-489721के),
01 सितम्बर 2005

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 3176954डब्ल्यू अब जेसी-489689ए),
09 नवम्बर 2004

हवलदार जले सिंह (सं. 3177393वाई अब जेसी-489690पी),
20 मार्च 2005

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 3178853एफ अब जेसी-489691एक्स),
20 मार्च 2005

हवलदार हंस राज (सं. 3179120पी अब जेसी-489692ए), 20 मार्च
2005

हवलदार कप्तान सिंह (सं. 3179367डब्ल्यू अब जेसी-
489693एच), 14 अप्रैल 2005

हवलदार शिव पाल (सं. 3177621डब्ल्यू अब जेसी-489694एल),
28 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जयपाल (सं. 3177382एम अब जेसी-489695एन),
01 जुलाई 2005

5 जी आर (एफ एफ)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जगत बहादुर थापा (सं. 5449921एम अब जेसी-
617741एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार आई बहादुर गुरुंग (सं. 5449971एक्स अब जेसी-
617742एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार केमान सिंह आले (सं. 5449284एफ अब जेसी-
617736ए), 01 जुलाई 2005

हवलदार सक बहादुर पुन (सं. 5449294एल अब जेसी-
617737एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार हर्क बहादुर पुन (सं. 5449393एन अब जेसी-
617738एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार मंत्रि जंग गुरुंग (सं. 5449891ए अब जेसी-
617739एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार भरत कुमार राना (सं. 5449932वाई अब जेसी-
617740एच), 01 जुलाई 2005

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह राठी (सं. 3182495वाई अब जेसी-
489663एल), 27 सितम्बर 2004

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3177498एच अब जेसी-
489664एन), 16 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बालू राम (सं. 3175387एम अब जेसी-489665डब्ल्यू),
31 जनवरी 2005

हवलदार महावीर प्रसाद (सं. 3180587एम अब जेसी-489666वाई),
01 मई 2005

हवलदार पूरन राम बाजिया (सं. 3179527एल अब जेसी-
489684एफ), 25 मई 2005

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 3181034एच अब जेसी-489685के), 26 जून 2005	हवलदार भीम सिंह (सं. 4465710एक्स अब जेसी-509239एम), 11 अप्रैल 2005*
हवलदार ब्रज किशोर (सं. 3176834एक्स अब जेसी-489686एम), 13 जुलाई 2005	*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2005 से दी जायेगी)
हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3176983एल अब जेसी-489687पी), 01 अगस्त 2005	हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4462343एल अब जेसी-509240एफ), 01 फरवरी 2005
हवलदार पदम सिंह (सं. 3178285एफ अब जेसी-489688एक्स), 01 अगस्त 2005	हवलदार धीर सिंह (सं. 4471400एच अब जेसी-509241के), 21 फरवरी 2005
हवलदार देवकरन सिंह (सं. 3179272डब्ल्यू अब जेसी-489680एल), 07 मई 2005	हवलदार केसर सिंह (सं. 4466984पी अब जेसी-509242एम), 21 मार्च 2005
हवलदार जय प्रकाश (सं. 3179391एम अब जेसी-489681एन), 08 मई 2005	हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 4462520ए अब जेसी-509243पी), 01 अप्रैल 2005
हवलदार महा सिंह डागर (सं. 3181103एन अब जेसी-489682डब्ल्यू), 01 जून 2005	हवलदार अमरीक सिंह (सं. 4466988एल अब जेसी-509245ए), 03 अप्रैल 2005
हवलदार राजवीर सिंह (सं. 3180360वाई अब जेसी-48968वाई), 01 जुलाई 2005	नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में
सिख लाइट इन्फैन्ट्री नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में	हवलदार (क्लर्क) कुमार सैन (सं. 4465643एक्स अब जेसी-509244एक्स), 09 मई 2005*
हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4464027एल अब जेसी-509230एक्स), 01 मई 2005*	*(नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)
*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)	पंजाब रेजिमेन्ट नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में
हवलदार अजमेर सिंह (सं. 4471178एम अब जेसी-509231ए), 01 जुलाई 2004	हवलदार क्लर्क लखविन्दर सिंह (सं. 2475383वाई अब जेसी-429695के), 28 अक्टूबर 2004
हवलदार जसबिन्दर सिंह (सं. 4467823वाई अब जेसी-509232एच), 12 नवम्बर 2004	(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)
हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4468755एच अब जेसी-509233एल), 12 नवम्बर 2004	हवलदार क्लर्क तुलसी दास ठाकुर (सं. 2476276के अब जेसी-429696एम), 01 नवम्बर 2004
हवलदार मकखन सिंह (सं. 4466930एन अब जेसी-509234एन), 13 दिसम्बर 2004	हवलदार क्लर्क दलजीत सिंह (सं. 2476640एक्स अब जेसी-429770एच), 15 जनवरी 2005
हवलदार अमरीक सिंह (सं. 4469268पी अब जेसी-509235डब्ल्यू), 29 दिसम्बर 2004	(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार गुरजीत सिंह (सं. 4469386एच अब जेसी-509236वाई), 30 दिसम्बर 2004	हवलदार क्लर्क देशराज समकारिया (सं. 2476883एच अब जेसी-429713एफ), 01 जनवरी 2005
हवलदार बलजिन्दर सिंह (सं. 4469392डब्ल्यू अब जेसी-509237एफ), 15 जनवरी 2005*	हवलदार क्लर्क शशी कुमार (सं. 2476971वाई अब जेसी-429771एल), 09 फरवरी 2005
*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)
हवलदार रनजीत सिंह (सं. 4462595एक्स अब जेसी-509238के), 12 जनवरी 2005*	हवलदार क्लर्क मानवर पाल शर्मा (सं. 2477271एक्स अब जेसी-429786एम), 01 फरवरी 2005
*(नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	

हवलदार क्लर्क सुभाष चन्द्र वैद्य (सं. 2477273एच अब जेसी-429800पी), 19 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क बलबीर सिंह (सं. 2477276एन अब जेसी-429799वाई), 01 अप्रैल 2005

हवलदार क्लर्क राम प्रसाद शर्मा (सं. 2477279के अब जेसी-429801एक्स), 12 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क मोहनन्दर सिंह (सं. 2477284पी अब जेसी-429808एफ), 19 मई 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सत पॉल (सं. 2479618एक्स अब जेसी-429731के), 28 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार पुरन चन्द (सं. 2475137एन अब जेसी-429760वाई), 07 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 2472754एल अब जेसी-429759के), 24 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार लाल सिंह (सं. 2474387एच अब जेसी-429752ए), 04 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 2480754ए अब जेसी-429773डब्ल्यू), 14 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 2474479पी अब जेसी-429753एच), 15 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 2478619एम अब जेसी-429774वाई), 20 अक्टूबर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 2475287के अब जेसी-429754एल), 15 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलबिन्दर सिंह (सं. 2477457एल अब जेसी-429744एफ), 07 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 2475378एन अब जेसी-429745के), 14 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 2474610एफ अब जेसी-429743वाई), 11 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 2474341ए अब जेसी-429732एम), 19 नवम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सत पाल सिंह (सं. 2477020एन अब जेसी-429775एफ), 18 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 2474247डब्ल्यू अब जेसी-429751एक्स), 26 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 2474442एन अब जेसी-429757वाई), 03 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार राम दास (सं. 2477535एन अब जेसी-429761एफ), 12 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 2479868वाई अब जेसी-429762के), 12 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)	हवलदार बतन सिंह (सं. 2474282वाई अब जेसी-429736एक्स), 13 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार अशोक कुमार (सं. 2475039एन अब जेसी-429763एम), 12 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)	हवलदार विजय कुमार (सं. 2479089डब्ल्यू अब जेसी-429766ए), 17 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार पून सिंह (सं. 2475539एल अब जेसी-429764पी), 12 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)	हवलदार भूरी सिंह (सं. 2474136वाई अब जेसी-429758एफ), 29 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार रणजीत सिंह (सं. 2474875एल अब जेसी-429733पी), 05 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)	हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 2474415के अब जेसी-429756डब्ल्यू), 02 फरवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार चमन लाल (सं. 2480133एफ अब जेसी-429755एन), 21 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)	हवलदार कुलदीप सिंह ताबल (सं. 2476453वाई अब जेसी- 429737एल), 22 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार जगदेव सिंह (सं. 2477931के अब जेसी-429765एक्स), 24 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)	हवलदार बलकार सिंह (सं. 2475007एल अब जेसी-429747पी), 17 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 2475311पी अब जेसी-429746एम), 27 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)	हवलदार ध्यान सिंह भंगदौरी (सं. 2476536के अब जेसी- 429738एन), 10 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार जतिन्द्र सिंह (सं. 2480152एम अब जेसी-429789एफ), 28 मार्च 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)	हवलदार सुरिन्दर पाल सिंह (सं. 2479006ए अब जेसी- 429739डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार कश्मीर सिंह भारद्वाज (सं. 2474349एम अब जेसी- 429734एक्स), 05 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)	हवलदार सुखबिर सिंह (सं. 2474340एक्स अब जेसी-429749ए), 08 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)
हवलदार रवि दत्त शर्मा (सं. 2478537एल अब जेसी-429735ए), 11 दिसम्बर 2004 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)	हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 2477419एल अब जेसी-429748एक्स), 08 जनवरी 2005 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दीदार सिंह (सं. 2477593एक्स अब जेसी-429767एच),
24 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 2476205एच अब जेसी-429768एल),
24 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार परबिन्दर सिंह (सं. 2475830एक्स अब जेसी-429777एम),
23 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुखमिन्दर सिंह (सं. 2478354पी अब जेसी-429776के),
07 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार शर्मा (सं. 2475155डब्ल्यू अब जेसी-
429769एन), 07 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार तिलक राज (सं. 2481999एच अब जेसी-
429790डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार भविषन सिंह (सं. 2475325पी अब जेसी-
429791वाई), 19 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
03 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 2477511के अब जेसी-
429740एल), 10 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
07 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 2478973एच अब जेसी-
429792एफ), 25 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
30 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 2476328पी अब जेसी-
429802ए), 07 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
31 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 2475730एम अब जेसी-
429741एन), 01 जनवरी 2005

हवलदार रसपाल सिंह (सं. 2475412एच अब जेसी-429778पी),
15 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार मदन लाल (सं. 2476939के अब जेसी-429780एम),
01 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन कुमार (सं. 2474420पी अब जेसी-429779एक्स),
01 जनवरी 2005

हवलदार हरबन्स लाल (सं. 2473214वाई अब जेसी-429742डब्ल्यू),
01 जनवरी 2005

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 2473121के अब जेसी-429781पी),
01 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार लखबिर सिंह (सं. 2478040एन अब जेसी-429793के),
18 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार भुपिन्दर सिंह (सं. 2477567डब्ल्यू अब जेसी-429783ए),
02 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं. 2479485एम अब जेसी-429782एक्स),
15 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार जगीर सिंह (सं. 2476994ए अब जेसी-429794एम),
07 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्दर गजराज (सं. 2474448पी अब जेसी-429795पी),
10 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार सर्वजीत सिंह (सं. 2478725एम अब जेसी-429803एच),
10 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार करनैल सिंह कपूर (सं. 2479235एल अब जेसी-429796एक्स), 25 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 2478831एल अब जेसी-429797ए), 04 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार जनक राज (सं. 2474840पी अब जेसी-429805एन), 06 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार बिहारी लाल (सं. 2474925एल अब जेसी-429804एल), 06 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार लखबीर सिंह (सं. 2475587एल अब जेसी-429798एच), 01 अप्रैल 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार लेख राज (सं. 2475165ए अब जेसी-429785एल), 01 मार्च 2005

हवलदार रघवीर सिंह (सं. 2477875डब्ल्यू अब जेसी-429784एच), 01 मार्च 2005

हवलदार जसविन्द सिंह (सं. 2478042वाई अब जेसी-429799एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 2476215एम अब जेसी-429806डब्ल्यू), 12 मई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 3985202पी अब जेसी-520150ए), 07 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2005 से)

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 3985291वाई अब जेसी-520151एच), 01 फरवरी 2005

हवलदार तिलक राज (सं. 3981068एक्स अब जेसी-520152एल), 14 फरवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से)

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3983669एफ अब जेसी-520153एन), 15 मार्च 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2005 से)

हवलदार लेख राज (सं. 3984162एम अब जेसी-520154डब्ल्यू), 30 मार्च 2005

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 3984185एन अब जेसी-520147ए), 01 अप्रैल 2005

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3985129एफ अब जेसी-520148एच), 15 जून 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार सुभाष कुमार धीमान (सं. 3985332एक्स अब जेसी-520149एल), 01 जून 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमृत लाल (सं. 3983110के अब जेसी-520057वाई), 26 सितम्बर 2004

हवलदार सरूप सिंह (सं. 3983986एच अब जेसी-520058एफ), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3983126पी अब जेसी-520059के), 01 नवम्बर 2004

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 3983209ए अब जेसी-520060वाई), 01 नवम्बर 2004

हवलदार कुमार चन्द (सं. 3985549एफ अब जेसी-520061एफ), 09 नवम्बर 2004

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 3987955ए अब जेसी-520062के), 28 जनवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 नवम्बर 2004 से)

हवलदार शेर सिंह (सं. 3982771एक्स अब जेसी-520063एम), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार जनक राज (सं. 3983226ए अब जेसी-520064पी), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार खेम सिंह (सं. 3983249एफ अब जेसी-520065एक्स), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 3985609एल अब जेसी-520066ए), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार लाल चन्द (सं. 3987397के अब जेसी-520067एच), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार मदन सिंह (सं. 3983702एन अब जेसी-520068एल), 16 दिसम्बर 2004

हवलदार हरी दास (सं. 3982779के अब जेसी-520069एन),
28 दिसम्बर 2004

हवलदार माही राम शर्मा (सं. 3988411एक्स अब जेसी-520070एच),
01 जनवरी 2005

हवलदार कुलदीप सिंह चौहान (सं. 3983227एच अब
जेसी-520071एल), 12 जनवरी 2005

हवलदार सुरिन्द्र कुमार (सं. 3986258एन अब जेसी-520072एन),
21 जनवरी 2005

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं. 3981436एफ अब जेसी-520073डब्ल्यू),
08 फरवरी 2005

हवलदार कविन्द्र सिंह (सं. 3982579एन अब जेसी-520074वाई),
08 फरवरी 2005

हवलदार हरबंस सिंह (सं. 3983648एल अब जेसी-520075एफ),
08 फरवरी 2005

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3983723के अब जेसी-520076के), 13
फरवरी 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक वान्दी राम (सं. 3985312के अब
जेसी-520077एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार लिपिक विमन सिंह (सं. 3985314पी अब जेसी-520078पी),
24 जनवरी 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ज्योती प्रकाश शर्मा (सं. 3987296डब्ल्यू अब जेसी-
520141वाई), 08 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2004 से)

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 3983583एच अब जेसी-520142एफ),
05 जून 2005

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 3984394एल अब जेसी-520143के),
27 अप्रैल 2005

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लिपिक धर्म पाल चौहान (जेसी-568310एम), 01 फरवरी
2005

सूबेदार लिपिक बिशन सिंह मटवाल (जेसी-568314एच), 26 अप्रैल
2005@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 मार्च 2005)

सूबेदार लिपिक तारा चन्द मनहास (जेसी-568315एल), 26 अप्रैल
2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 1 अप्रैल 2005)

सूबेदार लिपिक शंकर सिंह (जेसी-568350डब्ल्यू), 05 अगस्त
2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक उत्तम चन्द (जेसी-568752एल), 06 नवम्बर
2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

नायब सूबेदार लिपिक जगताप सुदाम तुकाराम (जेसी-568753एन),
01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार लिपिक कदम भगवन्त बबन (जेसी-568754डब्ल्यू),
01 मार्च 2005

नायब सूबेदार लिपिक विजय कुमार सिंह (जेसी-568778ए),
02 मार्च 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

नायब सूबेदार लिपिक राम स्वरूप जाट (जेसी-568849पी),
11 अप्रैल 2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार लिपिक रघुबीर सिंह (जेसी-568855के), 02 अप्रैल
2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार लिपिक श्याम सिंह (जेसी-568871एफ), 02 मई
2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

नायब सूबेदार लिपिक राकेश कुमार (जेसी-568874पी), 04 जुलाई
2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005)

नायब सूबेदार पारस नाथ वयाश (जेसी-568979वाई), 21 जून
2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2004)

नायब सूबेदार लक्ष्मी धर नायक (जेसी-568692एफ), 19 जुलाई
2004@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)

नायब सूबेदार धुमाने विठल रामलाल (जेसी-568820एन), 03 जून
2004@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-568948वाई), 14 जून 2004#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)

नायब सूबेदार लालाराम चन्द्रा टयडे (जेसी-569041एक्स), 03 जून
2004###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)

नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-569083के), 13 जून 2004### ###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)	नायब सूबेदार लीयाकत अली मलीक (जेसी-568998के), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार मेमपाल सिंह (जेसी-569078वाई), 01 जून 2004	नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-569053एम), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार अतिराज सिंह चौहान (जेसी-569080डब्ल्यू), 26 जून 2004\$	नायब सूबेदार मनपाल सिंह (जेसी-569090ए), 01 सितम्बर 2004
\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2004)	नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-569082एफ), 30 सितम्बर 2004*** ***(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 सितम्बर 2004)
नायब सूबेदार गुनमणि जैना (जेसी-568950डब्ल्यू), 10 जुलाई 2004\$\$	नायब सूबेदार बाबू राम (जेसी-569045एन), 11 सितम्बर 2004
\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004)	नायब सूबेदार सन्तोष कुमार पाल (जेसी-569044एल), 26 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार जीत सिंह (जेसी-568989एच), 05 जुलाई 2004	नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-568735एल), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार करण सिंह (जेसी-569121पी), 16 अगस्त 2004\$\$\$ \$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 जुलाई 2004)	नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-568954एम), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार कालू राम (जेसी-569122एक्स), 03 अगस्त 2004% %(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 जुलाई 2004)	नायब सूबेदार दीपक सिंह नयाल (जेसी-569050वाई), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार प्रफुल्ला कुमार साहु (जेसी-568953के), 01 अगस्त 2004	नायब सूबेदार नेटके बापू भयरू (जेसी-569031एन), 16 अक्टूबर 2004***
नायब सूबेदार भूपाल सिंह (जेसी-569043एच), 01 अगस्त 2004	*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार मोहम्मद रेजूल हक्य (जेसी-569051एफ), 01 अगस्त 2004	नायब सूबेदार स्वापान कुमार विसबास (जेसी-569006पी), 14 अक्टूबर 2004@@
नायब सूबेदार धरम सिंह (जेसी-569271एल), 13 सितम्बर 2004%% %% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)	@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार देवके आन्दराव बबनराव (जेसी-569272एन), 06 सितम्बर 2004%%%	नायब सूबेदार रामकरण यादव (जेसी-568975एच), 01 अक्टूबर 2004
%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)	नायब सूबेदार झेरमल सिंह (जेसी-569042ए), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार गणेश श्रीराम जाधव (जेसी-569088एच), 24 अगस्त 2004&	नायब सूबेदार सत्यापाल सिंह (जेसी-569048एफ), 15 अक्टूबर 2004@@@
& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)	@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार काम्बले मछिन्द्रा काशीनाथ (जेसी-569161डब्ल्यू), 15 अगस्त 2004&&	नायब सूबेदार त्रिलोक गिरी (जेसी-569056ए), 01 अक्टूबर 2004
&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)	नायब सूबेदार नरसी लाल (जेसी-569049के), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-569179एम), 14 अगस्त 2004&&& &&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)	नायब सूबेदार हरि राम (जेसी-569057एच), 27 अक्टूबर 2004# # (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार हरिश्चन्द्र (जेसी-569180एफ), 21 अगस्त 2004	नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-569058एल), 03 जनवरी 2005## ## (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-568990एक्स), 02 सितम्बर 2004**	नायब सूबेदार मालेकर सुखदेव पन्डरी (जेसी-569111एल), 11 नवम्बर 2004####
** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004)	#### (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार सरकटे अभिमन्यु अर्जुन (जेसी-568996वाई), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार दान्डी विलास पडूरंग (जेसी-569112एन), 02 दिसम्बर 2004\$
	\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार वाघ बालासहाय बागाजी (जेसी-569114वाई),
25 नवम्बर 2004\$\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार आनंद सिंह (जेसी-569072एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार चन्दर सिंह (जेसी-569002एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-569091एच), 04 अक्टूबर 2004\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार उमेश्वर सिंह (जेसी-569093एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार भूरी सिंह (जेसी-569073ए), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ढाकर दास (जेसी-569094डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2004

नायब सूबेदार दीलिप यशवन्त भौसले (जेसी-569074एच),
01 नवम्बर 2004%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार साल्वे रवन पून्जा (जेसी-569098एम),
01 नवम्बर 2004%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार रविन्दर तुलसीराम टयाडे (जेसी-569117एम),
01 नवम्बर 2004%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-569084एम),
01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार पटेल सुरेश कुमार रावजीब (जेसी-569119एक्स),
10 नवम्बर 2004&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार लखवन्त सिंह (जेसी-569105एक्स), 01 अक्टूबर
2004

नायब सूबेदार विलास बाबूसा इनाले (जेसी-569144डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-569146एफ), 02 अक्टूबर
2004&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार गुरविन्दर सिंह (जेसी-569106ए), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार अनूप सिंह भण्डारी (जेसी-569153एक्स), 01 अक्टूबर
2004

नायब सूबेदार एकनाथ सुखदेव राव गवाहली (जेसी-569214के),
01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुखीन्दर सिंह (जेसी-569126एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार सुभाष तुकाराम इंगले (जेसी-569166पी), 01 अक्टूबर
2004

नायब सूबेदार विद्या धर (जेसी-569135पी), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-569167एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-569195के), 04 दिसम्बर 2004*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-569197पी), 20 अक्टूबर 2004**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-569033वाई), 11 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जीत सिंह (जेसी-568976एल), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-568977एन), 09 नवम्बर 2004***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

नायब सूबेदार राम पाल (जेसी-569136एक्स), 10 नवम्बर 2004@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

नायब सूबेदार हनुमान सिंह शेखावत (जेसी-569137ए), 01 नवम्बर
2004

नायब सूबेदार रवि कुमार (जेसी-569177एफ), 03 जनवरी 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-569328पी), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार हरि राम (जेसी-569257वाई), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-568991ए), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार इन्दर पाल (जेसी-568978डब्ल्यू), 13 दिसम्बर
2004@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार जयबीर सिंह शेखावत (जेसी-569066के), 01 दिसम्बर
2004

नायब सूबेदार वांखेडे श्रीपति मारुती (जेसी-569274वाई), 01 दिसम्बर
2004

नायब सूबेदार बारामातिकर भमिराव बालू (जेसी-569275एफ),
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार केशव गनपत सोनाने (जेसी-569169एच), 07 जनवरी
2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार केदार सिंह गूर्जर (जेसी-569071पी), 07 जनवरी
2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 दिसम्बर 2004)

नायब सूबेदार चन राम (जेसी-569120एम), 16 फरवरी 2005###	हवलदार रांकानिधी नायक (सं. 4555752वाई अब जेसी-569543ए), 06 जनवरी 2005@@
###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 दिसम्बर 2004)	@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
नायब सूबेदार जमन सिंह (जेसी-569123ए), 22 दिसम्बर 2004	हवलदार राज पाल (सं. 4553608एक्स अब जेसी-569544एच), 18 जनवरी 2005@@@
नायब सूबेदार राजपूत हीरा सिंह तुलशीराम (जेसी-569087ए), 09 फरवरी 2005\$	@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)	हवलदार कमलेश चन्द्रा (सं. 4555521पी अब जेसी-569545एल), 24 दिसम्बर 2004#
नायब सूबेदार के रैंक में	#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
हवलदार लिपिक कांबले शंकर नामदेव (सं. 4551998एम अब जेसी-569444एक्स), 01 नवम्बर 2004	हवलदार जय करण (सं. 4555894एच अब जेसी-569546एन), 24 दिसम्बर 2004##
हवलदार लिपिक सरवन सिंह (सं. 4554444वाई अब जेसी-569469के), 01 दिसम्बर 2004	##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
हवलदार लिपिक राजबीर सिंह (सं. 4554877डब्ल्यू अब जेसी-569411एक्स), 03 फरवरी 2005@	हवलदार अंगद कुमार सिंह, एस एम (सं. 4559900एच अब जेसी-569547डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2004###
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)	###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)
हवलदार लिपिक पूरन सिंह चौहान (सं. 4555087एन अब जेसी-569512ए), 01 फरवरी 2005	हवलदार शिव दत्ता (सं. 4559714एम अब जेसी-569548वाई), 24 दिसम्बर 2004\$
हवलदार लिपिक स्वर्ण दास शर्मा (सं. 3382677डब्ल्यू अब जेसी-569513एच), 01 फरवरी 2005	\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 अक्टूबर 2004)
हवलदार लिपिक राम नरेश सिंह चौहान (सं. 4556039ए अब जेसी-569540एम), 01 मार्च 2005	हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 4556065एफ अब जेसी-569549एफ), 24 दिसम्बर 2004\$\$
हवलदार लिपिक पामार रमेश चन्द्र नारायण भाई (सं. 4556062एन अब जेसी-569541पी), 21 मार्च 2005\$	\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)
\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)	हवलदार विक्रम सिंह (सं. 4556715के अब जेसी-569550डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2004\$\$\$
हवलदार लिपिक देश राज (सं. 4556063डब्ल्यू अब जेसी-569569पी), 06 अप्रैल 2005#	\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004)
#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)	हवलदार जग राम (सं. 4555778ए अब जेसी-569551वाई), 24 दिसम्बर 2004%
हवलदार लिपिक विक्रम सिंह (सं. 4553168पी अब जेसी-569570के), 20 अप्रैल 2005*	%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)
*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 मार्च 2005)	हवलदार बलवान सिंह (सं. 4556002वाई अब जेसी-569552एफ), 24 दिसम्बर 2004%%
हवलदार लिपिक सुबाश चन्द्र (सं. 4553398एच अब जेसी-569571एम), 24 अप्रैल 2005%	%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004)
%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	हवलदार गौड़ किशोर राजू (सं. 4554172के अब जेसी-569553के), 23 जनवरी 2005%%%
हवलदार लिपिक यशवंत सिंह भंडारी (सं. 4554110के अब जेसी-569572पी), 13 अप्रैल 2005\$	%%% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 19 दिसम्बर 2004)
\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005)	हवलदार विमल सी एच बर्मन (सं. 4554256एक्स अब जेसी-569554एम), 23 जनवरी 2005&
हवलदार विनोद सिंह (सं. 7430649एच अब जेसी-569542एक्स), 25 जनवरी 2005@	& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर 2004)
@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)	हवलदार अलहट पोपट विठल (सं. 4558885एम अब जेसी-569555पी), 12 फरवरी 2005&&
	&& (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 दिसम्बर 2004)

हवलदार मोती चन्द्रा सिंह (सं. 4552382एल अब जेसी-569556एक्स), 08 जनवरी 2005&&&

&&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

हवलदार टायडे सन्तोश जयराम (सं. 4557516एच अब जेसी-569557ए), 08 फरवरी 2005*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

हवलदार रणदिवे शंकर सम्भाजी (सं. 4559453के अब जेसी-569558एच), 21 जनवरी 2005**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

हवलदार पतावाकर सुरेश खान्दूजी (सं. 4557851एम अब जेसी-569559एल), 08 फरवरी 2005***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

हवलदार कावले श्रीकान्त यशवंत (सं. 4557811एल अब जेसी-569560ए), 21 जनवरी 2005@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 4553333पी अब जेसी-569561एच), 10 फरवरी 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 जनवरी 2005)

हवलदार राजिन्द्र सिंह (सं. 4556802एक्स अब जेसी-569562एल), 31 जनवरी 2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 16 जनवरी 2005)

हवलदार जगत सिंह (सं. 4551857एक्स अब जेसी-569563एन), 14 फरवरी 2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 18 जनवरी 2005)

हवलदार कावले बाबुराव नाना (सं. 4558733एल अब जेसी-569564डब्ल्यू), 10 फरवरी 2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 जनवरी 2005)

हवलदार राज पाल सिंह (सं. 4553391वाई अब जेसी-569565वाई), 16 फरवरी 2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार नन्द लाल गुरजर (सं. 4553816एम अब जेसी-569566एफ), 02 फरवरी 2005\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार किशन (सं. 4554948एम अब जेसी-569567के), 07 फरवरी 2005\$\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार ठोके सोपन रामभाऊ (सं. 4559529वाई अब जेसी-569568एम), 02 मार्च 2005\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005)

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विशू बहादुर क्षेत्री (सं. 5845132डब्ल्यू अब जेसी-629699के), 01 मई 2005/22 मार्च 2005*

हवलदार नरेश बहादुर क्षेत्री (सं. 5845149के अब जेसी-629700एन), 23 मई 2005/02 अप्रैल 2005*

हवलदार हरी प्रसाद सुवेदी (सं. 5845245वाई अब जेसी-629701डब्ल्यू), 23 मई 2005/13 अप्रैल 2005*

हवलदार विशू बहादुर क्षेत्री (सं. 5845215एफ अब जेसी-629702वाई), 06 जून 2005/12 मई 2005*

हवलदार घन बहादुर क्षेत्री (सं. 5845542एम अब जेसी-629703एफ), 03 जून 2005/15 मई 2005*

हवलदार धोर बहादुर रिमल (सं. 5845287एल अब जेसी-629704के), 01 जुलाई 2005/01 जून 2005*

हवलदार नैना बहादुर थापा (सं. 5845788एल अब जेसी-629705एम), 04 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार ओम बहादुर खान (सं. 5846691एम अब जेसी-629706पी), 27 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार बेद बहादुर के सी (सं. 5845639एक्स अब जेसी-629707एक्स), 27 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार यम बहादुर खत्री (सं. 5845772ए अब जेसी-629708एफ), 01 जुलाई 2005

हवलदार जग बहादुर क्षेत्री (सं. 5845444एम अब जेसी-629709एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार टीकु बहादुर मल्ला (सं. 5846110के अब जेसी-629710एक्स), 02 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार ईश्वर सिंह थापा (सं. 5846572डब्ल्यू अब जेसी-629711ए), 11 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार खेम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845483एल अब जेसी-629712एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार लेश बहादुर थापा (सं. 5845493पी अब जेसी-629713एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार जीत बहादुर क्षेत्री (सं. 5845564एल अब जेसी-629714एन), 01 जुलाई 2005

रंगरूट (आर टी) मुरलीधर पाण्डे (सं. 629665डब्ल्यू अब जेसी-629665डब्ल्यू), 19 फरवरी 2005

हवलदार शेर बहादुर क्षेत्री (सं. 5845530एक्स अब जेसी-629695एन), 26 अप्रैल 2005/05 दिसम्बर 2004*

हवलदार प्रेम बहादुर क्षेत्री (सं. 5845588पी अब जेसी-629696डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2005/10 जनवरी 2005*

हवलदार/लिपिक विनोद कुमार पाठक (सं. 5846288ए अब जेसी-629697वाई), 01 नवम्बर 2003/01 फरवरी 2005*

हवलदार चित्रा बहादुर मल्ला (सं. 5845555के अब जेसी-629698एफ), 31 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार शिव प्रसाद क्षेत्री (सं. 5845863के अब जेसी-629715डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

हवलदार नन्द बोर क्षेत्री (सं. 5845650डब्ल्यू अब जेसी-629716वाई), 05 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार खडका बहादुर थापा (सं. 5845668एम अब जेसी-629717ए), 05 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005*

हवलदार मेष बहादुर के सी (सं. 5845518डब्ल्यू अब जेसी-629719एम), 01 अगस्त 2005/01 मई 2005*

हवलदार नर बहादुर क्षेत्री (सं. 5845524के अब जेसी-629720एफ), 01 अगस्त 2005/01 जून 2005*

हवलदार/लिपिक गोविन्द सिंह भौरयाल (सं. 5846301वाई अब जेसी-629721के), 01 अगस्त 2005

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तेज बहादुर राना (सं. 5245247एम अब जेसी-607605एफ), 01 जनवरी 2005

हवलदार नुर बहादुर थापा (सं. 5245409एम अब जेसी-607606के), 01 जनवरी 2005

हवलदार लाल बहादुर खत्री (सं. 5245422डब्ल्यू अब जेसी-607607एम), 01 जनवरी 2005

हवलदार चेत बहादुर थापा (सं. 5245461पी अब जेसी-607608पी), 01 जनवरी 2005

हवलदार आले देव बहादुर (सं. 5245462एक्स अब जेसी-607609एक्स), 09 मार्च 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार मेखरास गुरुंग (सं. 5244799एन अब जेसी-607600एच), 01 अप्रैल 2005/01 नवम्बर 2004*

हवलदार लक्ष्मी कान्त भण्डारी (सं. 5245424एफ अब जेसी-607601एल), 07 मार्च 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार पूर्ण बहादुर थापा (सं. 5245610एक्स अब जेसी-607602एन), 01 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार दूध बहादुर गुरुंग (सं. 5244887के अब जेसी-607603डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार ओम नारायण नेवार (सं. 5245227वाई अब जेसी-607604वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार लीला बहादुर थापा (सं. 5245478एच अब जेसी-607610एम), 26 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार जीत कुमार राना (सं. 5245530ए अब जेसी-607611पी), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार भरत बहादुर गुरुंग (सं. 5245864पी अब जेसी-607612एक्स), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार शेष कान्त थापा (सं. 5245629डब्ल्यू अब जेसी-607613ए), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार चित्रा बहादुर थापा (सं. 5245630एल अब जेसी-607614एच), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार गोविन्द बहादुर गुरुंग (सं. 5245640पी अब जेसी-607615एल), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार राज कुमार थापा (सं. 5245642ए अब जेसी-607616एन), 10 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005*

हवलदार कृष्ण बहादुर थापा (सं. 5245643एच अब जेसी-607617डब्ल्यू), 25 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार बुद्धी बहादुर थापा (सं. 5245686एक्स अब जेसी-607618एच), 19 मार्च 2005/12 फरवरी 2005*

हवलदार बम बहादुर गुरुंग (सं. 5245685पी अब जेसी-607619एफ), 19 मार्च 2005/12 फरवरी 2005*

हवलदार तेज बहादुर थापा (सं. 5245688एच अब जेसी-607620डब्ल्यू), 19 मार्च 2005/12 फरवरी 2005*

हवलदार गणेश बहादुर राना (सं. 5245667एम अब जेसी-607621वाई), 19 मार्च 2005/12 फरवरी 2005*

हवलदार पूर्ण बहादुर राना (सं. 5244671एच अब जेसी-607622एफ), 04 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार गणेश कुमार श्रेष्ठा (सं. 5244687एन अब जेसी-607623के), 04 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार धन प्रसाद पुन (सं. 5244697पी अब जेसी-607624एम), 04 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार श्याम लाल थापा (सं. 5244966वाई अब जेसी-607635वाई), 01 अप्रैल 2005

हवलदार/लिपिक सुरेन्द्र सिंह पुन्डीर (सं. 5245171एक्स अब जेसी-607636एफ), 02 अप्रैल 2005

हवलदार खडका बहादुर पुन (सं. 5244284एन अब जेसी-607637के), 31 मई 2005/06 मार्च 2005*

हवलदार देव बहादुर पुन (सं. 5245551डब्ल्यू अब जेसी-607638एम), 12 जून 2005/06 मार्च 2005*

हवलदार फलेन्द्र प्रसाद गुरुंग (सं. 5245554के अब जेसी-6076239पी), 31 मई 2005/06 मार्च 2005*

हवलदार दुर्गा बहादुर थापा (सं. 5244672एल अब जेसी-607625पी), 04 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार गंजामन गुरुंग (सं. 5244882एल अब जेसी-607626एक्स), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार पूर्ण बहादुर थापा (सं. 5244910एम अब जेसी-607627ए), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5244839के अब जेसी-607628एच), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार पंच बहादुर गुरुंग (सं. 5244917डब्ल्यू अब जेसी-607629एल), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक जय राम यादव (सं. 5245230वाई अब जेसी-607646एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार तेज बहादुर गुरुंग (सं. 5244723एन अब जेसी-607647एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार ओम बहादुर गुरुंग (सं. 5244730के अब जेसी-607648डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

हवलदार युव बहादुर राना (सं. 5244789के अब जेसी-607649वाई), 01 जुलाई 2005

हवलदार देव बहादुर थापा (सं. 5245606पी अब जेसी-607650एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार जय बहादुर घाले (सं. 5245646डब्ल्यू अब जेसी-607651डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

हवलदार रवीन्द्र गुरुंग (सं. 5245531एफ अब जेसी-607640के), 11 जून 2005/06 मार्च 2005*

हवलदार मंत्री जंग गुरुंग (सं. 5245556पी अब जेसी-607641एम), 11 जून 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार यम बहादुर राना (सं. 5244698ए अब जेसी-607642पी), 01 जून 2005

हवलदार हेम बहादुर थापा (सं. 5245477ए अब जेसी-607643एक्स), 27 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार मन प्रसाद थापा (सं. 5245486एफ अब जेसी-607644ए), 08 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार ओम नारायण श्रेष्ठा (सं. 5245506के अब जेसी-607645एच), 25 जून 2005/01 जून 2005*

हवलदार जस बहादुर गुरुंग (सं. 5244911पी अब जेसी-607630ए), 01 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5245840एल अब जेसी-607631एच), 19 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार दिल बहादुर थापा (सं. 5245928पी अब जेसी-607632एल), 24 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

हवलदार/लिपिक रामधनी यादव (सं. 5245157एल अब जेसी-607633एन), 01 अप्रैल 2005

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5244938एम अब जेसी-6076234डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)।

11 जी आर
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मनी प्रसाद राई (जेसी-634006एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम बहादुर राई (जेसी-634492एन), 23 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से)

नायब सूबेदार धन बहादुर लिम्बू (जेसी-634493डब्ल्यू), 24 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से)

नायब सूबेदार श्याम प्रकाश राई (जेसी-634504एक्स), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार राजेश कुमार गुरुंग (जेसी-634526डब्ल्यू), 23 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पंचा बहादुर लिम्बू (सं. 9419594डब्ल्यू अब जेसी-634624डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार गजेन्द्र सुब्बा (सं. 9417581ए अब जेसी-634625वाई), 01 फरवरी 2005

हवलदार रत्न बहादुर (सं. 9417507वाई अब जेसी-634626एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार लक्ष्मी बहादुर (सं. 9417508एफ अब जेसी-634627के), 01 फरवरी 2005

हवलदार लाल बहादुर राई (सं. 9417677एच अब जेसी-634628एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार राणा बहादुर राई (सं. 9417803के अब जेसी-634629पी), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

हवलदार रमेश कुमार राई (सं. 9419442पी अब जेसी-634630के), 08 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

हवलदार देव प्रकाश राई (सं. 9419863एक्स अब जेसी-634631एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार रेसम बहादुर राई (सं. 9417613एक्स अब जेसी-634632पी), 08 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

हवलदार नंदा लाल क्षेत्री (सं. 9417791ए अब जेसी-634633एक्स), 12 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

पेराशूट रेजिमेन्ट
सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-412608पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार रंजित सिंह राठौर (जेसी-412779एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रघुराज सिंह (जेसी-412472एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-412688एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मोर्धे राम राना (जेसी-412720एफ), 01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक नेहपाल सिंह (जेसी-412527पी), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार लिपिक शेर सिंह राठौर (जेसी-412512एम), 01 सितम्बर 2005

8 जी आर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बेल बहादुर पुन (सं. 5750796वाई अब जेसी-623615पी), 12 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लोक कृष्ण गुरुंग (सं. 5751565पी अब जेसी-623616एक्स), 30 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार तारा प्रसाद राना (सं. 5750987एन अब जेसी-623619एल), 30 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ज्ञान बहादुर थापा (सं. 5750533ए अब जेसी-623617ए), 04 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी)

हवलदार रेशम बहादुर थापा (सं. 5750437एल अब जेसी-623618एच), 02 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी)

हवलदार गिरिमान गुरुंग (सं. 5750501एक्स अब जेसी-623620ए), 01 अप्रैल 2005

हवलदार पुर्न बहादुर थापा मगर (सं. 5749759वाई अब जेसी-623621एच), 25 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)

हवलदार राम बहादुर के सी (सं. 5750775एच अब जेसी-623622एल), 17 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)

हवलदार बिर बहादुर थापा (सं. 5750638के अब जेसी-623623एन), 17 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार नर बहादुर मुखिया (सं. 5750324एच अब जेसी-623625वाई), 04 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार गेम बहादुर राना मगर (सं. 5751215एच अब जेसी-623624डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार तुल बहादुर थापा (सं. 5750970ए अब जेसी-623626एफ), 02 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी)

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ढवले पांडुरंग कुंडलीकराव (सं. 2787249वाई अब जेसी-459527ए), 03 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सोनवणे रतन निवृत्ति (सं. 2782229एफ अब जेसी-459528एच), 28 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार नाईक शिवाजी रामू (सं. 2783905एक्स अब जेसी-459529एल), 08 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार भालेराव रमेश पद्माकर (सं. 2783870एम अब जेसी-459530ए), 02 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार घाटगे रघुनाथ अप्पासाहेब (सं. 2785622पी अब जेसी-459531एच), 02 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार पवार मधुकर भीमराव (सं. 2780581एम अब जेसी-459532एल), 05 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार जाधव दिलीपकुमार विनायक (सं. 2787563एम अब जेसी-459533एन), 31 मई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार इंगले सुभाष दत्तात्रय (सं. 2779559पी अब जेसी-459534डब्ल्यू), 16 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार रावसाहेब विश्वनाथ म्हस्के (सं. 2781046वाई अब जेसी-459536एफ), 25 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार दारकुंडे महादेव जगन्नाथ (सं. 2781618पी अब जेसी-459537के), 25 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार पवार दीपक श्रीपत (सं. 2786245डब्ल्यू अब जेसी-459538एम), 04 जून 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार भोसले तानाजी बामणाजी (सं. 2785460पी अब जेसी-459540के), 01 जुलाई 2005+

हवलदार सुरेश देसाई (सं. 2785604एम अब जेसी-459541एम), 04 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक अविनाश चंद्र गोस्वामी (सं. 2780916वाई अब जेसी-459535वाई), 01 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक प्रह्लाद चंद्रा पाल (सं. 2781209एफ अब जेसी-459539पी), 01 जुलाई 2005

सिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सवरन सिंह, सेना मेडल (जेसी-498048पी), 01 अगस्त 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-499166पी), 30 जुलाई 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-499157एन), 08 जुलाई 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2005

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-499197पी), 13 जून 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-499082एफ), 09 मई 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005

नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-499206एल), 13 जुलाई 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005

नायब सूबेदार नाजर सिंह (जेसी-499259एक्स), 05 अगस्त 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005

नायब सूबेदार सुखवीर सिंह (जेसी-499001डब्ल्यू), 02 अगस्त 2005

सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2005

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-499192डब्ल्यू), 14 अगस्त 2005	हवलदार गुरिन्दर सिंह (सं. 3387386ए अब जेसी-499629वाई), 14 अगस्त 2005
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005	नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005
नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-499261एफ), 17 अगस्त 2005	नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005	हवलदार क्लर्क अमर सिंह (सं. 3385244के अब जेसी-499630एन), 01 अगस्त 2005
सूबेदार क्लर्क के रैंक में	नायब सूबेदार के रैंक में
नायब सूबेदार क्लर्क दया नन्द (जेसी-498970के), 01 जुलाई 2005	हवलदार सुलखन सिंह (सं. 3386034डब्ल्यू अब जेसी-499601वाई), 04 जुलाई 2005
नायब सूबेदार के रैंक में	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)
हवलदार जसपाल सिंह (सं. 3386016एन अब जेसी-499622पी), 06 अगस्त 2005	हवलदार मोहन सिंह (सं. 3386058ए अब जेसी-499602एफ), 05 जुलाई 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)
हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 3387247डब्ल्यू अब जेसी-499623एक्स), 15 जून 2005	हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3387985ए अब जेसी-499603के), 19 जून 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2005)
हवलदार रंजीत सिंह (सं. 3389639एच अब जेसी-499624ए), 23 जुलाई 2005	हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 3387110के अब जेसी-499604एम), 27 जून 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)
हवलदार गुरमल सिंह (सं. 3389768एच अब जेसी-499625एच), 23 जुलाई 2005	हवलदार हरभजन सिंह (सं. 3386390डब्ल्यू अब जेसी-499605पी), 01 जुलाई 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2005)
हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3384179एच अब जेसी-499626एल), 14 अगस्त 2005	हवलदार हरमिन्दर सिंह (सं. 3386741ए अब जेसी-499606एक्स), 01 जुलाई 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2005)
हवलदार शमशेर सिंह (सं. 3389045एन अब जेसी-499627एन), 05 अगस्त 2005	हवलदार हरदेव सिंह (सं. 3387666एन अब जेसी-499607ए), 05 जुलाई 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2005)
हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 3384594के अब जेसी-499628डब्ल्यू), 14 अगस्त 2005	हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं. 3387591एफ अब जेसी-499608एच), 14 जून 2005
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005)

- हवलदार महिन्दर सिंह (सं. 3387607एफ अब जेसी-499609एल),
14 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 3387670डब्ल्यू अब जेसी-499610ए),
14 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार भगवान सिंह (सं. 3386968एन अब जेसी-499611एच),
15 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3385831पी अब जेसी-499612एल),
28 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3385329ए अब जेसी-499613एन),
22 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार तरलोक सिंह (सं. 3385393एक्स अब जेसी-499614डब्ल्यू),
13 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 3387987एल अब जेसी-499615वाई),
16 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005)
हवलदार भूपिन्दर सिंह (सं. 3386827वाई अब जेसी-499616एफ),
04 जुलाई 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 मई 2005)
हवलदार मुखतियार सिंह (सं. 3385591एच अब जेसी-499617के),
27 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 मई 2005)
हवलदार बलकार सिंह (सं. 3385299एन अब जेसी-499618एम),
27 जून 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 मई 2005)

हवलदार मेला सिंह (सं. 3386206ए अब जेसी-499619पी), 01
जुलाई 2005

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क सियाराम उपाध्याय (सं. 3383962एफ अब
जेसी-499620के), 01 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004)

हवलदार क्लर्क धर्मवीर शर्मा (सं. 3380632एक्स अब
जेसी-499621एम), 05 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मई 2005)

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टी चन्द्रशेखर नायडू (सं. 2588299एम अब जेसी-439589वाई),
10 अप्रैल 2005

हवलदार बासवाराज जोगले (सं. 2591672एम अब जेसी-439591डब्ल्यू),
21 अप्रैल 2005

हवलदार कुन्जुमोन ए (सं. 2590544एच अब जेसी-439590एन),
26 अप्रैल 2005

हवलदार डी चेल्लाथुरे (सं. 2590182एम अब जेसी-439593एफ),
05 मई 2005

हवलदार गोपालकृष्णन आर (सं. 2590211डब्ल्यू अब जेसी-439594के),
05 मई 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) उज्ज्वल बरन वैदया (सं. 2588723के अब
जेसी-439600एम), 01 मई 2005

हवलदार (क्लर्क) अप्पू पी (सं. 10165615एल अब
जेसी-439601पी), 01 मई 2005

हवलदार (क्लर्क) वेद प्रकाश (सं. 2589078एम अब
जेसी-439602एक्स), 28 जून 2005*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामाचन्द्रा (सं. 2588015एक्स अब जेसी-439567ए), 01
अक्टूबर 2004

हवलदार बालासुब्रामोनियन एन (सं. 8031665पी अब जेसी-439603ए),
01 नवम्बर 2004

हवलदार पी चिन्ना करुण्णन (सं. 2588036एन अब जेसी-439568एच),
30 नवम्बर 2004

हवलदार हरिमथ विश्वनाथ (सं. 2587412के अब जेसी-439587एन), 12 जुलाई 2005*	नायब सूबेदार के गोपालकृष्णन (जेसी-439333डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2005 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार बासवराज (जेसी-438951पी), 01 अगस्त 2005
हवलदार आर पन्नीर सेल्वम (सं. 2592070एल अब जेसी-439604एच), 20 अप्रैल 2005	सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में
हवलदार सुधागर एस (सं. 2590507पी अब जेसी-439605एल), 20 अप्रैल 2005	नायब सूबेदार (क्लर्क) राजशेखरन पी (जेसी-439066ए), 01 जुलाई 2005
हवलदार बूपालन के (सं. 2588970एक्स अब जेसी-439595एम), 14 जून 2005*	नायब सूबेदार (क्लर्क) पुरुशोथमन कन्नोथ बोटिल (जेसी-438961वाई), 01 अगस्त 2005
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार (क्लर्क) लाभ सिंह (जेसी-438962एफ), 01 अगस्त 2005
हवलदार मुपुडी वीरा ब्रह्मचारी (सं. 2582278ए अब जेसी-439572एल), 01 दिसम्बर 2004	सूबेदार के रैंक में
हवलदार प्रकाशन वीवीके (सं. 2588343एल अब जेसी-439573एन), 21 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार ओएम रवी (जेसी-438767के), 03 दिसम्बर 2003
हवलदार अशरफ केटी (सं. 2593566एम अब जेसी-439598ए), 22 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार लोकनाथा एस (जेसी-439287एम), 17 जुलाई 2005*
हवलदार एनडी पल्लंगप्पा (सं. 2586624एच अब जेसी-439574डब्ल्यू), 02 जनवरी 2005	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी)
हवलदार रवीन्द्रन पीके (सं. 2581754एफ अब जेसी-439575वाई), 02 जनवरी 2005	नायब सूबेदार पोलोस टीए (जेसी-439102ए), 06 मार्च 2005
हवलदार बासवराज मल्लप्पा अगसार (सं. 2583880एम अब जेसी-439576एफ), 02 फरवरी 2005	नायब सूबेदार एस थमिल चेलवन (जेसी-439153एन), 25 मार्च 2005
हवलदार के सुब्रामनी (सं. 2590701के अब जेसी-439596पी), 30 जून 2005*	नायब सूबेदार श्रीधरन के (जेसी-439063एम), 20 अप्रैल 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2005 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार एन राजू (जेसी-439071एल), 06 जून 2005
हवलदार ओमनन एन (सं. 2586767एच अब जेसी-439577के), 07 अप्रैल 2005*	*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)	नायब सूबेदार माधवन टीवी (जेसी-438950एम), 01 जून 2005
सूबेदार के रैंक में	नायब सूबेदार बी नागराज (जेसी-439124वाई), 01 जून 2005
नायब सूबेदार जम्नादार विनायक राव कामागोन्ड (जेसी-439043वाई), 01 मई 2005	नायब सूबेदार उन्नीकृष्णन वी (जेसी-439207के), 01 जून 2005
नायब सूबेदार बीआर वासुदेवा गोडा (जेसी-439044एफ), 07 अगस्त 2005*	नायब सूबेदार के रैंक में
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2005 से दी जाएगी)	हवलदार करुनागरन डी (सं. 2588371एक्स अब जेसी-439611वाई), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार चन्द्रशेखरन पी (जेसी-439049ए), 07 जून 2005	हवलदार बी वेलायुथन (सं. 2589095एम अब जेसी-439612एफ), 06 मार्च 2005
	हवलदार वेन्कटेशुलू नायडू बी (सं. 2591383एक्स अब जेसी-439617ए), 21 अप्रैल 2005
	हवलदार प्रथाप जे (सं. 2591321एक्स अब जेसी-439615पी), 23 मई 2005
	हवलदार तायप्पा खोट (सं. 2592796एन अब जेसी-439616एक्स), 01 अगस्त 2005*
	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार वी दसरथा राजू (सं. 2589643वाई अब जेसी-439623एन),
01 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाएगी)

हवलदार एस ईस्वरन (सं. 2589921एफ अब जेसी-439624डब्ल्यू),
10 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

गुलाब सिंह (जेसी-439459डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2004

केशव प्रसाद पान्डेय (जेसी-439460एल), 11 दिसम्बर 2004

राजेश कुमार शर्मा (जेसी-439461एन), 19 फरवरी 2005

कृष्णा मूर्ती पान्डेय (जेसी-439462डब्ल्यू), 19 फरवरी 2005

सुनील कुमार ताम्रकार (जेसी-439463वाई), 19 फरवरी 2005

5 जी आर (एफ एफ)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जित बहादुर गुरुंग (सं. 5449960एल अब जेसी-617730वाई),
01 अप्रैल 2005

हवलदार अमर बहादुर पुन (सं. 5449247एन अब जेसी-617731एफ),
02 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी)

हवलदार कृष्ण बहादुर थापा (सं. 5448974वाई अब जेसी-617732के),
02 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2005 से दी जाएगी)

हवलदार ठाकुर प्रसाद गुरुंग (सं. 5449950एफ अब जेसी-617733एम),
01 जून 2005

हवलदार आश बहादुर थापा (सं. 5449252वाई अब
जेसी-617735एक्स), 01 जुलाई 2005

महार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मौरे तानाजी भीमा (सं. 4557709एच अब
जेसी-569573एक्स), 26 फरवरी 2005@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004।)

हवलदार काम्बले महेन्द्रा चन्द्रापा (सं. 4559035पी अब
जेसी-569574ए), 15 फरवरी 2005@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004।)

हवलदार वानखेडे शिवप्पा तुकाराम (सं. 4559104ए अब
जेसी-569575एच), 11 अप्रैल 2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004।)

हवलदार यशवन्त सिंह (सं. 4553519एक्स अब जेसी-569576एल),
08 अप्रैल 2005#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 दिसम्बर 2004।)

हवलदार कुलवीर सिंह (सं. 4554317के अब जेसी-569577एन),
08 अप्रैल 2005##

##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 दिसम्बर 2004।)

हवलदार महाकान्त झा (सं. 4553241एन अब जेसी-569578डब्ल्यू),
18 अप्रैल 2005###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005।)

हवलदार पुष्कर सिंह (सं. 4555339पी अब जेसी-569579वाई), 01
जनवरी 2005

हवलदार चावरे सतेन्द्र कुमार नीलकण्ठ (सं. 4557806ए अब
जेसी-569580एन), 09 मार्च 2005\$\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005।)

हवलदार प्रभुनाथ यादव (सं. 4554787पी अब जेसी-569581डब्ल्यू),
18 अप्रैल 2005\$\$\$

\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005।)

हवलदार सन्त बीर सिंह (सं. 4561613एक्स अब जेसी-569582वाई),
18 अप्रैल 2005%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005।)

हवलदार भरत सिंह (सं. 4556885एन अब जेसी-569583एफ), 03
मार्च 2005%%

%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005।)

हवलदार अहीरे रवीन्द्रा मनीक (सं. 4557059ए अब
जेसी-569584के), 01 मार्च 2005%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 फरवरी 2005।)

हवलदार अलीयकस इन्द (सं. 4557865एम अब जेसी-569585एम),
18 अप्रैल 2005&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 फरवरी 2005।)

हवलदार दीलिप दीपाजी गायकवाड (सं. 4557079एन अब
जेसी-569586पी), 07 मार्च 2005&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005।)

हवलदार बदन सिंह (सं. 4549971डब्ल्यू अब जेसी-569587एक्स),
18 मार्च 2005&&&

&&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005।)

हवलदार जगताप शिवाजी सिदराम (सं. 4557929एम अब जेसी-569588ए), 15 अप्रैल 2005*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005।)

हवलदार देशाई दस्तगीर राजसाहब (सं. 4558782एन अब जेसी-569589एच), 22 अप्रैल 2005**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005।)

हवलदार जनादन सिंह मजीला (सं. 4562145पी अब जेसी-569590एक्स), 18 अप्रैल 2005***

*** (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 मार्च 2005।)

हवलदार फरीद अहमद खान (सं. 4557207ए अब जेसी-569591ए), 04 अप्रैल 2005@

@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2005।)

हवलदार रामधन (सं. 4553660ए अब जेसी-569592एच), 10 मई 2005@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 अप्रैल 2005।)

हवलदार विनोद कुमार मिश्रा (सं. 4555034पी अब जेसी-569593एल), 16 मई 2005@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 07 अप्रैल 2005।)

हवलदार कृष्ण कुमार (सं. 4554480के अब जेसी-569594एन), 10 मई 2005#

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 अप्रैल 2005।)

हवलदार जयराज भट्ट (सं. 4553818एक्स अब जेसी-569595डब्ल्यू), 02 मई 2005##

(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005।)

हवलदार यशवन्त रामा सींगारा (सं. 4559613वाई अब जेसी-569596वाई), 01 मई 2005

पेराशूट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राज कुमार (सं. 3983541डब्ल्यू अब जेसी-412968एल), 29 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 नवम्बर 2004।)

हवलदार हेम राज (सं. 3986063एच अब जेसी-412969एन), 12 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 नवम्बर 2004।)

हवलदार गोविन्दा शर्मा (सं. 13615319पी अब जेसी-412970एच), 21 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005।)

हवलदार प्रधान नामदेव गिनाजी, सेना मंडल (सं. 13617195के अब जेसी-412971एल), 01 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2004।)

हवलदार अनुप राय (सं. 13615916के अब जेसी-412972एन), 09 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005।)

हवलदार कृष्णा दास सिन्धा (सं. 13614461एम अब जेसी-412973डब्ल्यू), 09 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005।)

हवलदार सुदान सिंह (सं. 13614609ए अब जेसी-412974वाई), 01 जुलाई 2005

हवलदार रमेश चन्द (सं. 13615742पी अब जेसी-412976के), 15 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005।)

हवलदार दर्शन लाल (सं. 13615791एक्स अब जेसी-412977एम), 13 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005।)

हवलदार राम किशन लक्ष्मन शिंदे (सं. 13614685एम अब जेसी-412979एक्स), 19 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005।)

हवलदार राम निवास (सं. 13614919एल अब जेसी-412980एम), 01 मई 2005

(नायब सूबेदार लिपिक)

हवलदार/लिपिक अनिल कुमार पी (सं. 13615721वाई अब जेसी-412975एफ), 09 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005।)

हवलदार/लिपिक उन्निकृष्णन नायरजी (सं. 13615722एफ अब जेसी-412978पी), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार/लिपिक अमर नाथ (सं. 9417873एच अब जेसी-634653एल),
10 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 03 फरवरी 2005)

हवलदार/लिपिक जवाहर लाल शर्मा (सं. 9417897एम अब जेसी-634654एन), 01 मार्च 2005

हवलदार हरका प्रसाद लिम्बू (सं. 9417951पी अब जेसी-634655डब्ल्यू), 07 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार बिश्वा राज फोम्भो (सं. 9418327एच अब जेसी-634656वाई),
01 मार्च 2005

हवलदार तिलक बहादुर राई (सं. 9418210के अब जेसी-634657एफ),
01 मार्च 2005

हवलदार प्रजीत प्रधान (सं. 9417742एक्स अब जेसी-634658के),
01 मार्च 2005

हवलदार/लिपिक गोपाल सिंह बिष्ट (सं. 9417478पी अब जेसी-634659एम), 01 अप्रैल 2005

हवलदार केशर बहादुर चेम्जुंग (सं. 9417737एम अब जेसी-634660एफ), 01 अप्रैल 2005

हवलदार भरत कुमार लोकतम (सं. 9418252डब्ल्यू अब जेसी-634661के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार देव प्रकाश लिम्बू (सं. 9417801एल अब जेसी-634662एम),
03 मई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

हवलदार धन बहादुर राई (सं. 9418021ए अब जेसी-634663पी), 01 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

हवलदार चंद्रा प्रसाद गुरुंग (सं. 9418215एच अब जेसी-634664एक्स),
02 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

हवलदार धन राज लिम्बू (सं. 9418249एन अब जेसी-634665ए),
01 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005)

हवलदार नारद मनी राई (सं. 9419170पी अब जेसी-634666एच),
01 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 26 मई 2005)

हवलदार बिंदा प्रसाद राई (सं. 9418305के अब जेसी-634667एल),
21 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005)

हवलदार अमन गुरुंग (सं. 9420016एन अब जेसी-634668एन), 13 जून 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005)

हवलदार हरिष चंद्रा राई (सं. 9418277एच अब जेसी-634669डब्ल्यू),
02 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005)

हवलदार दिल्ली प्रसाद राई (सं. 9418286के अब जेसी-634670एल),
02 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005)

हवलदार राम प्रसाद राई (सं. 9418096एक्स अब जेसी-634671एन),
07 जुलाई 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 20 जून 2005)

हवलदार कृष्ण कुमार राई (सं. 9417664एल अब जेसी-634634ए),
01 फरवरी 2005

हवलदार कृष्ण कुमार प्रधान (सं. 9417708एक्स अब जेसी-634635एच), 01 फरवरी 2005

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह बास्नेत (सं. 9420043एक्स अब जेसी-634636एल), 01 फरवरी 2005

हवलदार इंद्र बहादुर लिम्बू (सं. 9419130वाई अब जेसी-634637एन),
01 फरवरी 2005

हवलदार मदन कुमार श्रेष्ठ (सं. 9418388ए अब जेसी-634638डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार मदन कुमार राई (सं. 9417932के अब जेसी-634639वाई), 19 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार गंगा बहादुर लिम्बू (सं. 9417966एक्स अब जेसी-634640एन), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार साब कुमार तमांग (सं. 9417974डब्ल्यू अब जेसी-634641डब्ल्यू), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार चाम करण श्रेष्ठ (सं. 9418051एक्स अब जेसी-634642वाई), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार भक्ता बहादुर थापा (सं. 9418041एन अब जेसी-634643एफ), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार विक्रम कुमार सुनवार (सं. 9418084एम अब जेसी-634644के), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार ओझी सोनी राई (सं. 9418133ए अब जेसी-634645एम), 08 अप्रैल 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार रुद्रा बहादुर राई (सं. 9418167एन अब जेसी-634646पी), 28 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार छीरींग तमांग (सं. 9417817के अब जेसी-634647एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार मचिंद्रा बहादुर राई (सं. 9417237पी अब जेसी-634648ए), 01 फरवरी 2005

हवलदार मन बहादुर राई (सं. 9418058एफ अब जेसी-634649एच), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार भोज कुमार राई (सं. 9418042डब्ल्यू अब जेसी-634650एक्स), 04 अप्रैल 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

हवलदार संत कुमार राई (सं. 9418124वाई अब जेसी-634651ए), 01 फरवरी 2005

हवलदार चंद्र बहादुर तमांग (सं. 9417153एफ अब जेसी-634652एच), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005)

कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार भुवन चन्द (सं. 4177522के अब जेसी-539742वाई), 02 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

सी क्यू एम एच चामू सिंह (सं. 4177925के अब जेसी-539743के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार विनोद कुमार (सं. 4176669एन अब जेसी-539787वाई), 07 जून 2005/01 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई।)

सी क्यू एम एच चंदन सिंह (सं. 4177306डब्ल्यू अब जेसी-539785एन), 07 जून 2005/01 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी गई।)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4177336एन अब जेसी-539786डब्ल्यू), 13 जून 2005/01 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी गई।)

हवलदार तेज सिंह कार्की (सं. 4179075के अब जेसी-539724डब्ल्यू), 21 मार्च 2005/08 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 08 जनवरी 2005 से दी गई।)

सी क्यू एम एच खीम सिंह (सं. 4179230ए अब जेसी-539732पी), 21 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

सी एच एम मनोहर सिंह (सं. 4178864के अब जेसी-539761के), 26 अप्रैल 2005/09 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार हरीश गिरी (सं. 4176330ए अब जेसी-539786डब्ल्यू), 17 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार शेर सिंह (सं. 4181919एन अब जेसी-539744के), 17 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार पूरन चन्द्र पलारिया (सं. 4182219एन अब जेसी-539745एम), 01 अप्रैल 2005

हवलदार राम सिंह बसेरा (सं. 4182924एल अब जेसी-539746पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार गोपाल सिंह, सेना मैडल (सं. 14701203वाई अब जेसी-539762एम), 10 मई 2005/01 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

सी एच एम मोहन सिंह (सं. 4177406एफ अब जेसी-539729पी), 02 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 4178672एम अब जेसी-539749एच),
21 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार दुर्गा सिंह (सं. 4181934एच अब जेसी-539748के), 21
अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार ललित मोहन खाती (सं. 4183310पी अब जेसी-539747पी),
21 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार हर्ष सिंह शाही (सं. 4178688एक्स अब जेसी-539778एक्स),
18 जून 2005/01 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार जीत सिंह गोबारी (सं. 4178712एच अब जेसी-539779ए),
18 जून 2005/01 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

सी क्यू एम एच धर्मेन्द्र कुमार (सं. 4174620वाई अब
जेसी-539726एफ), 14 मार्च 2005/12 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4176523ए अब जेसी-539727के), 14
मार्च 2005/12 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार जगदीश चन्द्र (सं. 4174559ए अब जेसी-539725वाई), 14
मार्च 2005/12 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार केशर सिंह (सं. 4182450पी अब जेसी-539763पी), 25
अप्रैल 2005/12 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 4182419एच अब जेसी-539728पी), 14
मार्च 2005/12 जनवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 12 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार खुशाल सिंह (सं. 14701517ए अब जेसी-539750पी), 04
अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

सी एच एम भीम सिंह (सं. 4177789वाई अब जेसी-539736एल),
14 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह राना (सं. 4177283ए अब जेसी-539735एच),
14 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4176570एक्स अब जेसी-539724ए),
14 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

सी एच एम लक्ष्मण सिंह (सं. 4176808एम अब जेसी-539751ए),
04 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

सी एच एम कुन्दन सिंह (सं. 4177324वाई अब जेसी-539788एफ),
01 जून 2005

सी एच एम सूर्या बाली (सं. 4181265पी अब जेसी-539764एक्स),
02 मई 2005/29 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार रामेश्वर (सं. 4175291ए अब जेसी-539765ए), 02 मई
2005/29 अप्रैल 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार रणवीर सिंह (सं. 4181604के अब जेसी-539766एच), 02
मई 2005/01 मई 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह धामी (सं. 4180494एन अब जेसी-539731एम),
22 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4180163एम अब जेसी-539730के), 05
मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

<p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार ताराचन्द्र यादव (सं. 4179995एफ अब जेसी-539752एच), 02 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार मनोहर सिंह खरायत (सं. 4180581एफ अब जेसी-539737एन), 15 मार्च 2005/01 मार्च 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार सोबन सिंह बिष्ट (सं. 4178235एम अब जेसी-539767एल), 01 मई 2005</p> <p>हवलदार महावीर सिंह (सं. 4174573एम अब जेसी-539775के), 10 अप्रैल 2005/01 जनवरी 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार भवान सिंह (सं. 4176513डब्ल्यू अब जेसी-539722एल), 24 फरवरी 2005/09 दिसम्बर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 दिसम्बर 2004 से दी गई।)</p> <p>आर पी एच एम लक्ष्मण सिंह (सं. 4179953वाई अब जेसी-539730एन), 24 फरवरी 2005/28 दिसम्बर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 28 दिसम्बर 2004 से दी गई।)</p> <p>हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4177476ए अब जेसी-539768एन), 30 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार रमेश चन्द्रा नैनवाल (सं. 4179207एम अब जेसी-539769डब्ल्यू), 30 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार हरीश चन्द्रा कापरी (सं. 4177746के अब जेसी-539770एल), 30 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार रिमल सिंह (सं. 4180114के अब जेसी-539781एक्स), 09 जून 2005/01 मई 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई।)</p>	<p>सी क्यू एम एच ओम सिंह (सं. 4174114एम अब जेसी-539720ए), 01 फरवरी 2005/03 अक्टूबर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अक्टूबर 2004 से दी गई।)</p> <p>हवलदार भरत चन्द (सं. 4178118एफ अब जेसी-539721ए), 01 फरवरी 2005/03 अक्टूबर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अक्टूबर 2004 से दी गई।)</p> <p>हवलदार ललिता प्रसाद पन्त (सं. 4176792एम अब जेसी-539771एन), 04 मई 2005/01 मार्च 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)</p> <p>सी एच एम श्री भगवान (सं. 4176779एच अब जेसी-539790पी), 16 मई 2005/05 अप्रैल 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 05 अप्रैल 2005 से दी गई।)</p> <p>सी एच एम नन्दन सिंह (सं. 4178602एन अब जेसी-539777पी), 07 जून 2005/05 मार्च 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 05 मार्च 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4178153के अब जेसी-539753एल), 01 अप्रैल 2005</p> <p>हवलदार चन्दन सिंह (सं. 4178132एन अब जेसी-539754एन), 01 अप्रैल 2005</p> <p>हवलदार चन्द्र सिंह किरौला (सं. 4177851ए अब जेसी-539772डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005/07 दिसम्बर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 दिसम्बर 2004 से दी गई।)</p> <p>हवलदार जगत सिंह (सं. 4177958पी अब जेसी-539755डब्ल्यू), 10 फरवरी 2005/07 दिसम्बर 2004*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 07 दिसम्बर 2004 से दी गई।)</p> <p>सी एच एम अतर सिंह (सं. 4175436ए अब जेसी-539756वाई), 30 मार्च 2005/09 मार्च 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2005 से दी गई।)</p> <p>हवलदार मोहन श्याम (सं. 4180411एक्स अब जेसी-539757एफ), 30 मार्च 2005/09 मार्च 2005*</p> <p>*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 मार्च 2005 से दी गई।)</p>
---	---

आर पी एच एम त्रिलोक सिंह (सं. 4175974एन अब जेसी-539738डब्ल्यू), 12 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार नन्दा बल्लभ (सं. 4176274एम अब जेसी-539758के), 01 अप्रैल 2005

सी क्यू एम एच आनन्द सिंह (सं. 4176704एल अब जेसी-539782ए), 01 मई 2005

सी एच एम जयप्रकाश यादव (सं. 4180533एफ अब जेसी-539783एच), 20 मई 2005/01 मई 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई।)

हवलदार देब सिंह (सं. 4175020एच अब जेसी-539739वाई), 05 मई 2005/13 मार्च 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार वीर सिंह यादव (सं. 4176683ए अब जेसी-539739एक्स), 21 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 2005 से दी गई।)

हवलदार सुबे सिंह (सं. 4176822वाई अब जेसी-539776एम), 01 मार्च 2005/01 फरवरी 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार दान सिंह (सं. 4177144डब्ल्यू अब जेसी-539740डब्ल्यू), 25 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

हवलदार जमन सिंह (सं. 4175831एन अब जेसी-539759एम), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार बरेन्द्र सिंह (सं. 4177241एन अब जेसी-539760एफ), 05 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार दिवान सिंह (सं. 4176426एच अब जेसी-539774एफ), 01 मई 2005/03 अप्रैल 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार सन्तोश कुमार (सं. 4176739एफ अब जेसी-539784के), 20 जून 2005/01 मई 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मई 2005 से दी गई।)

नागा रेजीमेंट

हवलदार थ्रिंगचेम संगतम (सं. 14701428एफ अब जेसी-590163पी), 09 मार्च 2005/01 जनवरी 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2005 से दी गई।)

सी एच एम अर्जुन सिंह (सं. 14701225एक्स अब जेसी-590164एक्स), 26 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2005 से दी गई।)

हवलदार विरेन्द्र सिंह थापा (सं. 14701011एफ अब जेसी-590165ए), 17 जून 2005/01 जून 2005 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2005 से दी गई।)

हवलदार पान सिंह (सं. 4175766वाई अब जेसी-590161वाई), 08 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार मान सिंह राना (सं. 14700881एम अब जेसी-590162एम), 08 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार सिटीबन थनगल (सं. 14701804के अब जेसी-590159एम), 10 जनवरी 2005/13 नवम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 नवम्बर 2004 से दी गई।)

हवलदार डब्ल्यू एस वन्गलैल (सं. 14702410एक्स अब जेसी-590160एफ), 18 फरवरी 2005/13 नवम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 13 नवम्बर 2004 से दी गई।)

गढ़वाल राईफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-528438पी), 01 जनवरी 2005

सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-528091एम), 01 जनवरी 2005

सूबेदार रमेश प्रसाद (जेसी-528341के), 01 फरवरी 2005

सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-528549एम), 01 फरवरी 2005
 सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-528451वाई), 01 फरवरी 2005
 सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-528580वाई), 23 फरवरी 2005
 सूबेदार खुशाल सिंह रावत (जेसी-528532वाई), 01 मार्च 2005
 सूबेदार महिमा नन्द (जेसी-528093वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चमन सिंह (जेसी-529286एल), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-529346पी), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-529357एफ), 01 अगस्त 2004
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-529287एन), 01 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार सते सिंह (जेसी-529374एफ), 01 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529376एम), 01 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-529384एल), 20 सितम्बर 2004
 नायब सूबेदार शिव सिंह नेगी (जेसी-529399एन), 01 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-529429ए), 01 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-529379ए), 09 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-529065वाई), 30 अक्टूबर 2004
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529382ए), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार यशवंत सिंह (जेसी-529380पी), 01 नवम्बर 2004
 नायब सूबेदार दर्पण सिंह (जेसी-529359एम), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-529390वाई), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-529401ए), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार शम्भू प्रसाद (जेसी-529403एल), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार चरण सिंह (जेसी-529412एम), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार बिजय सिंह (जेसी-529427पी), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार राजे सिंह (जेसी-529437वाई), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार बृज मोहन (जेसी-529491एम), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सुरत सिंह (जेसी-529492पी), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार प्रीतम सिंह रावत (जेसी-529494ए), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह रावत (जेसी-529495एच), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-529497एन), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-529485वाई), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-529504वाई), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529506के), 01 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार तेजपाल सिंह (जेसी-529406वाई), 25 दिसम्बर 2004
 नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-529103के), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार कुँवर सिंह (जेसी-529220पी), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-529221एक्स), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार माधो सिंह (जेसी-529331एम), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-529481एच), 01 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार सुरत सिंह (जेसी-529132वाई), 09 जनवरी 2005
 नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-529222ए), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-529338डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-529332पी), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-529385एन), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार राम किसन (जेसी-529431एक्स), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार सरिता नन्द (जेसी-529514एच), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार हरचन्द्र सिंह (जेसी-529448एल), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-529488एम), 01 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार महेश सिंह बिष्ट (जेसी-529408के), 25 फरवरी 2005
 नायब सूबेदार संग्राम सिंह (जेसी-529198पी), 01 मार्च 2005
 नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद (जेसी-529601डब्ल्यू), 01 मार्च 2005
 नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-529252एक्स), 08 मार्च 2005
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-529276एफ), 09 मार्च 2005

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) जीत सिंह पंवार (जेसी-528981एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4064111एक्स अब जेसी-529885एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार कमला पती (सं. 4064669एम अब जेसी-529886एन), 20 जून 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार किशना नन्द (सं. 4062454पी अब जेसी-529887डब्ल्यू), 30 जून 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार जय प्रकाश (सं. 4064341एल अब जेसी-529888वाई),
20 अप्रैल 2005

हवलदार शिव सिंह (सं. 4065490एल अब जेसी-529889एफ),
06 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

हवलदार शिव चरण (सं. 4067319एल अब जेसी-529890डब्ल्यू),
15 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार अमर चन्द (सं. 4065622एन अब जेसी-529891वाई), 15
जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार कमल किशोर (सं. 4062586एच अब जेसी-529892एफ),
15 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार त्रेपन सिंह (सं. 4065608एफ अब जेसी-529893के), 01
जून 2005

हवलदार यशदीप सिंह (सं. 4065932वाई अब जेसी-529894एन),
27 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार गिरिखान सिंह जायरा (सं. 4066799एन अब जेसी-529895पी),
27 जून 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार भरपूर सिंह (सं. 4064410एल अब जेसी-529896एक्स),
01 जुलाई 2005

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार समुन्दर सिंह (सं. 2880497एफ अब जेसी-469745एम),
27 मार्च 2005/01 सितम्बर 2004*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार सोहन सिंह (सं. 2879021एच अब जेसी-469746पी), 01
दिसम्बर 2004

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2879075के अब जेसी-469747एक्स),
18 अप्रैल 2005/09 दिसम्बर 2004*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 2879044के अब जेसी-469748ए), 01
मार्च 2005

हवलदार खुशीद अहमद (सं. 2881391एफ अब जेसी-469749एच),
01 अप्रैल 2005

हवलदार हासन नवाब (सं. 2880122एच अब जेसी-469750एक्स),
15 अप्रैल 2005

हवलदार हवा सिंह (सं. 2879172एफ अब जेसी-469751ए), 01 मई
2005

हवलदार अनुप सिंह (सं. 2883437एक्स अब जेसी-469752एच),
10 मई 2005

हवलदार बच्चू सिंह (सं. 2882680एच अब जेसी-469753एल), 10
मई 2005

हवलदार अखतर खान, एस एम (सं. 2879082ए अब जेसी-469754एन),
01 जून 2005

हवलदार फगल सिंह वर्मा (सं. 2879158पी अब जेसी-469755डब्ल्यू),
01 जून 2005

हवलदार सलाउद्दीन (सं. 2880354एफ अब जेसी-469756वाई),
01 जून 2005

हवलदार विरेंद्र सिंह (सं. 2880777पी अब जेसी-469757एफ), 01
जून 2005

हवलदार सुभाष चंद (सं. 2883759एक्स अब जेसी-469758के), 01
जून 2005

हवलदार जोगिंदर सिंह (सं. 2877795एम अब जेसी-469759एम),
02 जून 2005

हवलदार निवास राम (सं. 2883838एम अब जेसी-469760एफ), 05
जून 2005

हवलदार असार खान (सं. 2881170पी अब जेसी-469761के), 01
जुलाई 2005

हवलदार सूरज सिंह (सं. 2879697एल अब जेसी-469762एम), 01
जुलाई 2005

हवलदार जय सिंह (सं. 2879836के अब जेसी-469763पी), 01
जुलाई 2005

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रामफल सिंह साहु (जेसी-212583के), 01 मई 2003

सूबेदार सुरेश सिंह चौहान यदुनाथ सिंह चौहान (जेसी-204275पी),
09 मई 2003

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2003 से दी जायेगी।)

सूबेदार/क्लर्क शशिधरन एल (जेसी-468213ए), 01 मई 2003

सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-204042एन), 22 जुलाई 2003 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जायेगी।)	हवलदार/क्लर्क हेम राज सिंह चंदावत (सं. 2881295एम अब जेसी-469766एच), 09 जून 2005/01 जून 2005*
सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-212587ए), 01 जून 2003	*(नायब सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी।)
सूबेदार अत्तर सिंह राठी (जेसी-218239पी), 01 अगस्त 2003	हवलदार श्री पाल सिंह (सं. 2878665डब्ल्यू अब जेसी-469767एल), 01 जून 2005
सूबेदार रिशाल सिंह (जेसी-204037एच), 21 दिसम्बर 2003	हवलदार भागमल (सं. 2884110एल अब जेसी-469768एन), 01 जून 2005
सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-468296डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003	हवलदार पूरण सिंह राघव (सं. 2881104एम अब जेसी-469769डब्ल्यू), 01 जून 2005
सूबेदार दुर्ग सिंह (जेसी-468153डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003	हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 2879297वाई अब जेसी-469770एन), 01 जून 2005
सूबेदार/क्लर्क ओम प्रकाश (जेसी-468277एल), 01 दिसम्बर 2003	हवलदार जंगवीर सिंह (सं. 2880754एन अब जेसी-469771एन), 01 जून 2005
सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-216782पी), 01 मार्च 2004	हवलदार पप्पू सिंह परमार (सं. 2879876एल अब जेसी-469772डब्ल्यू), 04 जून 2005
सूबेदार निहाल चंद जाट (जेसी-468058के), 01 अप्रैल 2004	हवलदार सुरेश कुमार कादयाण (सं. 2877955एफ अब जेसी-469773वाई), 01 जुलाई 2005
सूबेदार शिशु पाल सिंह (जेसी-468149एन), 12 अप्रैल 2004	हवलदार बीजेंद्र सिंह (सं. 2880418एफ अब जेसी-469774एफ), 01 जुलाई 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार अन्नू सिंह (सं. 2879798वाई अब जेसी-469775के), 01 जुलाई 2005
सूबेदार साधु राम इन्डोनिया (जेसी-218463एफ), 01 जून 2004	हवलदार बलबीर सिंह (सं. 2875880डब्ल्यू अब जेसी-469776एम), 03 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005*
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)	*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी।)
सूबेदार हरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-224391वाई), 10 अप्रैल 2004	हवलदार गिरधर सिंह (सं. 2879390ए अब जेसी-469777पी), 03 जुलाई 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार छोटू राम (सं. 2880787वाई अब जेसी-469778एक्स), 03 जुलाई 2005
सूबेदार राम किशन (जेसी-220924वाई), 14 जून 2004	हवलदार मोती राम (सं. 2878906एन अब जेसी-469779ए), 27 जुलाई 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार बलराज (सं. 2880731एम अब जेसी-469780पी), 09 अगस्त 2005
सूबेदार धर्मबीर सिंह (जेसी-468121एन), 23 जून 2004	हवलदार राम बाबू (सं. 2878676एच अब जेसी-469781एक्स), 09 अगस्त 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी।)	हवलदार प्रभु सिंह चंदावत (सं. 2880830पी अब जेसी-469782ए), 01 सितम्बर 2005
सूबेदार/क्लर्क मदन सिंह तंवर (जेसी-468307एक्स), 10 मई 2004	हवलदार उदय सिंह तोमर (सं. 2880407पी अब जेसी-469783एच), 01 सितम्बर 2005
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी।)	
सूबेदार जय सिंह (जेसी-204044वाई), 01 जून 2004	
सूबेदार भीम सिंह चौहान (जेसी-468222एफ), 01 जुलाई 2004	
नायब सूबेदार के रैंक में	
हवलदार हरवीर सिंह (सं. 2884532डब्ल्यू अब जेसी-469764एक्स), 02 फरवरी 2005	
हवलदार मंजीत सिंह (सं. 2893366पी अब जेसी-469765ए), 01 अप्रैल 2005	

दि राजपूत रेजीमेंट

सूबेदार मेजर लिपिक के रूप में

सूबेदार मेजर लिपिक राकेश कुमार शर्मा (जेसी-478283एम), 03 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर के रूप में

सूबेदार मेजर सन्तोष सिंह चौहान (जेसी-478080एच), 09 मई 2005

सूबेदार मेजर भगवान सिंह गूजर (जेसी-478206एक्स), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर राम पाल सिंह, वी.आर.सी. (जेसी-478569एफ), 09 जुलाई 2005

सूबेदार मेजर बलवीर सिंह (जेसी-478398ए), 01 अगस्त 2005

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक त्रिज गोपाल सिंह (जेसी-478907एम), 01 मार्च 2005

सूबेदार के रूप में

सूबेदार विश्व नाथ सिंह (जेसी-479008वाई), 01 अगस्त 2004

सूबेदार नन्द लाल सिंह यादव (जेसी-479103एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-479230ए), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार भीम सिंह (जेसी-479231एच), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार जल सिंह (जेसी-479227ए), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार सुमेश कुमार (जेसी-478918ए), 14 नवम्बर 2004

सूबेदार बहौरन सिंह (जेसी-479248डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार वेद पाल (जेसी-479028एम), 01 जनवरी 2005

सूबेदार शिव राम सिंह तन्वर (जेसी-479087वाई), 01 जनवरी 2005

सूबेदार रिशी राज (जेसी-479162एक्स), 01 जनवरी 2005

सूबेदार राकेश कुमार सिंह (जेसी-479169एफ), 23 जनवरी 2005

सूबेदार सोना राम गूजर (जेसी-479012एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार गुरमैल सिंह (जेसी-479000एम), 22 फरवरी 2005

सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-479040एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-479205एफ), 23 मार्च 2005

सूबेदार हर भजन (जेसी-478841एच), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मोती सिंह (जेसी-479124एफ), 01 मई 2005

सूबेदार चरत राम (जेसी-479214एच), 01 मई 2005

सूबेदार जयपान सिंह (जेसी-479034ए), 04 मई 2005

सूबेदार राम स्वरूप बगोरिया (जेसी-479215एल), 25 मई 2005

सूबेदार संसार सिंह (जेसी-479264एन), 01 जून 2005

सूबेदार जगदीश कुमार (जेसी-479140वाई), 01 जून 2005

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-479283वाई), 01 अगस्त 2005

इन्फैन्ट्री

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खत्री अजीत कुमार कन्हैया लाल (सं. 2684239पी अब जेसी-449951पी), 24 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2004)

हवलदार देव करण मीना (सं. 2679897एक्स अब जेसी-449952एक्स), 16 दिसम्बर 2004

हवलदार श्री भगवान (सं. 2676981एम अब जेसी-449953ए), 15 फरवरी 2005

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 2679186एक्स अब जेसी-449954एच), 12 मार्च 2005

हवलदार रोशन लाल (सं. 2674815ए अब जेसी-449955एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार हरीश चन्द्र सिंह (सं. 8031610एल अब जेसी-449956एन), 01 अप्रैल 2005

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 2677296एम अब जेसी-449957डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2005

हवलदार कमल सिंह (सं. 2674445एल अब जेसी-449958वाई), 06 अप्रैल 2005

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 2674625एन अब जेसी-449959एफ), 07 अप्रैल 2005

हवलदार त्रिषि प्रकाश (सं. 2678379एल अब जेसी-449960डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2005

हवलदार रविन्द्र (सं. 2676871एक्स अब जेसी-449961वाई), 20 अप्रैल 2005

हवलदार संतोष सिंह (सं. 2676016एच अब जेसी-449962एफ), 23 अप्रैल 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 2677141वाई अब जेसी-449963के), 01 मई 2005

हवलदार राज पाल (सं. 2677886एम अब जेसी-449964एम), 01 मई 2005

हवलदार इस्लाम अली खां (सं. 2677178ए अब जेसी-449965पी), 04 मई 2005

हवलदार अवधेश प्रताप सिंह (सं. 2682132एफ अब जेसी-449966एक्स), 04 मई 2005

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2680572डब्ल्यू अब जेसी-449967ए),
07 मई 2005

हवलदार सूबे सिंह (सं. 2679594एच अब जेसी-449968एच),
10 मई 2005

हवलदार मोहम्मद रहसीन (सं. 2677386पी अब जेसी-449969एल),
10 मई 2005

हवलदार करन सिंह (सं. 2677027एफ अब जेसी-449970ए),
11 मई 2005

हवलदार मोहम्मद इस्लाम (सं. 2677357ए अब जेसी-449971एच),
01 जून 2005

हवलदार गिरधारी लाल जाट (सं. 2677493डब्ल्यू अब जेसी-
449972एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 2677095पी अब जेसी-449973एन),
01 जुलाई 2005

हवलदार जीवन राम (सं. 2680652एन अब जेसी-449974डब्ल्यू),
01 जुलाई 2005

हवलदार गणेश सिंह (सं. 2676610के अब जेसी-449975वाई),
01 जुलाई 2005

हवलदार छावड़ा प्रताप भाई जगमाल भाई (सं. 2683873एल अब
जेसी-449976एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक धर्म सिंह जाखड (सं. 2679148एफ अब जेसी-
449977के), 01 जुलाई 2005

हवलदार/लिपिक समरेन्द्र नायक (सं. 2684100एक्स अब जेसी-
449978एम), 01 जुलाई 2005

हवलदार/लिपिक सुखदेव प्राधर (सं. 2677312ए अब जेसी-
449979पी), 01 जुलाई 2005

जम्मू और काश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर जी. डी. के रैंक में

सूबेदार कमल किशोर (जेसी-578729एल), जैक राईफलस, 01 मई
2005

सूबेदार रणजीत सिंह समयाल (जेसी-579078एम), जैक राईफलस,
01 मई 2005

सूबेदार करपाल सिंह (जेसी-578875एल), जैक राईफलस, 01 जून
2005

सूबेदार प्रगट सिंह (जेसी-578694ए), जैक राईफलस, 01 जुलाई 2005

सूबेदार कृष्णा बहादुर थापा (जेसी-578635एन), जैक राईफलस, 01
जुलाई 2005

सूबेदार रमेश थापा (जेसी-578531एम), जैक राईफलस, 01 अगस्त
2005

सूबेदार शिव सिंह (जेसी-578394वाई), जैक राईफलस, 01 अगस्त
2005

सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-578701एल), जैक राईफलस, 01 अगस्त
2005

सूबेदार सुदर्शन कुमार शर्मा (जेसी-579090एन), जैक राईफलस,
01 अगस्त 2005

सूबेदार जी. डी. के रैंक में

नायब सूबेदार दर्शन लाल (जेसी-579350एन), जैक राईफलस,
01 जून 2003

नायब सूबेदार जमाल दीन (जेसी-579104एच), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार नानक चन्द (जेसी-579410एक्स), जैक राईफलस,
01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जेसी-579424एक्स), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-579638एन), जैक राईफलस,
01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार शाम लाल (जेसी-579722एन), जैक राईफलस,
01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-579612वाई), जैक राईफलस,
01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार रोमेश चन्द्र (जेसी-579529एफ), जैक राईफलस,
01 मार्च 2005

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-579532एफ), जैक राईफलस,
01 मार्च 2005

नायब सूबेदार रमेश चन्द चौधरी (जेसी-579524एच), जैक राईफलस,
10 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार देस राज (जेसी-579537ए), जैक राईफलस, 01 मई
2005

नायब सूबेदार शंकर दास शर्मा (जेसी-579548एम), जैक राईफलस,
01 मई 2005

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार राणा (जेसी-579525एल), जैक राईफलस,
01 मई 2005

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-579591एन), जैक राईफलस, 01 मई
2005

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-579138डब्ल्यू), जैक राईफलस,
01 जून 2005

नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-579655एन), जैक राईफल्स, 01 जून 2005

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-579526एन), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार चरण सिंह (जेसी-579656डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार बच्चन लाल (जेसी-579580एफ), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद थापा (जेसी-578559डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 13 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-579586एच), जैक राईफल्स, 05 अगस्त 2005

नायब सूबेदार क्लर्क रतन लाल मोटेरा (जेसी-579144के), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार क्लर्क पुरुषोत्तम एम पी (जेसी-579213वाई), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार क्लर्क कर्ण सिंह काटल (जेसी-579214एक्स), जैक राईफल्स, 01 जुलाई 2005

दिवाकर
अवर सचिव

सं. 559, दिनांक 31 अक्टूबर 2005.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कोमोडोर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) रैंक में

एम केशवन (एमआर-2248एच)--02 अप्रैल 2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

वी आर देशपांडे (एम आर-03726एन), 19 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2004 से दी जाती है।

श्री रामादास (एम आर-03301पी), 27 फरवरी 2005 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 फरवरी 2005 से दी जाती है।

आर कामरान
ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से (का.)

सं. 560, दिनांक 28 अक्टूबर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी नं., नाम एवं आर्म

आईसी-46890 सुदीप मित्रा, आर्टी

--27 अक्टूबर 2002

(लेकिन वेतन एवं भत्ते 27 अक्टूबर 2003 से देय)

आईसी-54829 सुनील कुमार चन्द्रन, आर्टी

--06 नवम्बर 2003

आईसी-42067 राजेन्द्र सिंह, एएससी

आईसी-54334 अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री

आईसी-54358 दत्ता तरुनेश, एएससी

आईसी-54408 शिव बलक मिश्रा, इन्फैन्ट्री

आईसी-54467 सुभाष चन्दर, मैक इन्फैन्ट्री

आईसी-54492 विपिन राजसिंह सिरोही, एसी

आईसी-54558 शिवेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

--16 दिसम्बर 2004

आईसी-58599 गौरव सिंह, ईएमई

आईसी-58613 योगेश कुमार सिंह, सिग्नल्स

आईसी-58616 अनुरेश शर्मा, सिग्नल्स

आईसी-58621 रोहित चित्तोरिया, ईएमई

आईसी-58635 नवीन सूरी, ईएमई

आईसी-58649 मयंक चौहान, ईएमई

आईसी-58685 पाटिल अमोद सुरेश, ईएमई

आईसी-58703 अमरीक सिंह सिद्धू, सिग्नल्स

आईसी-58717 इंग्लेश पाल सिंह, सिग्नल्स

आईसी-58721 अनुराग बिहारी माथुर, ईएमई

आईसी-58733 रवती कुमार वैद्य, ईएमई

आईसी-58748 तनुज सेठ, एसी

आईसी-58753 आनन्द सिंह, ईएमई

आईसी-58767 वाका सुधाकर रेड्डी, ईएमई

आईसी-58783 अभिषेक सिंह राणा, सिग्नल्स

आईसी नं., नाम एवं आर्म	स्थायी कमीशन (एस एल)
आईसी-58808 सचिन सूद, ईएमई	कप्तान से मेजर
आईसी-58818 अनिल बहुगुणा, सिग्नल्स	एसएल नं. नाम एवं आर्म
आईसी-58868 मेशराम नितिन जयदेव राव, ईएमई	एसएल-4594 अनिल कंडारी, एसएलएसपीटी
आईसी-58879 सुपर्णा कुमार मोहन्ती, ईएमई	--23 अप्रैल 2003
आईसी-58891 शैलेन्द्र धर, ईएमई	एसएल-4663 एस एस गाडकारी, एस एल ए पी टी सी
आईसी-58916 गुरमीत सिंह केन्थ, इंजीनियर्स	--13 जून 2004
आईसी-58933 रोहित पुरी, सिग्नल्स	एसएल-4740 राजबीर सिंह, टी इ ओ ए डी आर्टी
आईसी-58935 के अरविन्दन, ईएमई	--16 दिसम्बर 2004
	चन्द्र प्रकाश
	उप निदेशक
--12 जून 2005	एम एस 8सी
रेजीमेंटल कमीशन	
कप्तान से मेजर	(सेना शाखा)
	शुद्धि पत्र
आईसी-00817 जसवंत सिंह, इन्फैन्ट्री	सं. 561, दिनांक 28 अक्टूबर 2005--भारत के राजपत्र में दिनांक 25
आईसी-00881 प्रभु दयाल, इन्फैन्ट्री	जून 2005 को शीर्षक नियमित सेना स्थाई कमीशन एवं उप-शीर्षक कप्तान
--03 दिसम्बर 2004	से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं.....में निम्नलिखित
स्पेशल कमीशन	संशोधन किया जाता है :--
कप्तान से मेजर	के बदले : आई सी-46890 एस मित्रा, आर्टी
आईसी-00085 मोहिन्दर लाल, इन्फैन्ट्री	पढ़ा जाए : रिक्त
आईसी-00112 उपेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	के बदले : आई सी-54829 सुनील कुमार चन्द्रन, आर्टी
आईसी-00125 गिरिश कुमार सिंह, एएससी	पढ़ा जाए : रिक्त
--16 दिसम्बर 2004	चन्द्र प्रकाश
	उप निदेशक
	एमएस 8सी

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

No. 556, dated 26th October 2005.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

THE GRENADIERS

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Harish Chandra (No. 1537052K now JC-449708X), 19 Feb 2005

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Nb Sub (RT)

Gopal Sharma (JC-459453W), 11 Jun 2005

DIWAKAR
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 557, dated 26th October 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Nb Sub (RT) (Pandit)

Vinod Kumar Tripathi (JC-420269P), 20 Aug 2005

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Major

Suh Kulwant Singh (JC-217926Y), 01 May 2005

Sub Kirti Ballabh (JC-402170W), 01 Jun 2005

Sub Virender Kumar (JC-402209X), 01 Jun 2005

Sub Raghuvir Singh (JC-402001P), 01 Jun 2005

Sub Rati Ram Yogi (JC-222598A), 04 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005).

Sub Rajendra Kumar Tiwari (JC-222599H), 27 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005).

To be Sub

Nb Sub Sohan Singh (JC-403072H), 25 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004).

Nb Sub Kavar Singh (JC-403183A), 29 Dec 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 19 Dec 2004).

Nb Sub Ram Niwas (JC-403011L), 10 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 03 Jan 2005).

Nb Sub Bed Ram (JC-403108W), 02 Mar 2005

Nb Sub Bhanu Singh Gurjar (JC-403109Y), 10 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 03 Mar 2005).

Nb Sub Prem Lal (JC-403123L), 03 Mar 2005

Nb Sub Bhagwana Ram Bishnoi (JC-403285L), 19 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2005).

Nb Sub Ram Kripal (JC-403249L), 01 Apr 2005

Nb Sub Durga Prasad (JC-403270N), 03 Apr 2005

Nb Sub Ramesh Singh (JC-403177M), 24 Apr 2005

Nb Sub Krishan Lal (JC-403003M), 11 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005).

Nb Sub Sis Ram (JC-403022X), 17 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005).

Nb Sub Ganesh Chand (JC-402812A), 01 May 2005

Nb Sub Subhash Chand (JC-402817Y), 21 May 2005

Nb Sub Chap Singh (JC-402910A), 22 May 2005

Nb Sub Mahabir Singh (JC-403059Y), 01 Jun 2005

Nb Sub Mohan Lal (JC-403271W), 01 Jun 2005

Nb Sub Phool Chand Jat (JC-403104A), 01 Jun 2005

Nb Sub Devinder Singh (JC-403256F), 01 Jun 2005

Nb Sub Abhey Ram Yadav (JC-403278A), 01 Jun 2005

Nb Sub Shiv Bahadur Yadav (JC-402532M), 22 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005).

Nb Sub Sube Singh (JC-403124N), 05 Jun 2005

Nb Sub Subhash Chander (JC-403118A), 05 Jun 2005

Nb Sub Krishan Kumar (JC-403125W), 05 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 07 Jun 2005).

Nb Sub Amar Chandra (JC-403052P), 22 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 29 Jun 2005).

Nb Sub Mohan Chand (JC-403267N), 01 Jul 2005

Nb Sub Jai Singh (JC-403167H), 01 Aug 2005

Nb Sub Prithivi Singh (JC-403188Y), 09 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005).

Nb Sub Shyam Babu (JC-403259P), 01 Aug 2005

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 558, dated 26th October 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Ranjeet Kumar Singh (No. 4266149K now JC-559441W), 07 April 2005/09 Feb 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jiteswar Nark (No. 4261190W now JC-559442Y), 20 April 2005/01 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mangal Sanga (No. 4262559H now JC-559443F), 13 Jun 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Babu Thakur (No. 4260353M now JC-559444K), 05 May 2005/16 Jul 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sudarshan Paul (No. 4262576H now JC-559445M), 11 May 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Lalindra Xalxo (No. 4264933Y now JC-559446P), 16 May 2005/01 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mathira Kispotta (No. 4266835X now JC-559447X), 16 May 2005/01 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Nath Singh (No. 4261801A now JC-559448A), 16 May 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Digambar Nayak (No. 4263229W now JC-559449H), 17 May 2005/01 Nov 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jnanaranjan Nayak (No. 4262574X now JC-559450X), 17 May 2005/09 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagaban Maharana (No. 42666154P now JC-559451A), 18 May 2005/01 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Padarath Singh (No. 4260564P now JC-559452H), 21 May 2005/17 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Satya Narayan Prasad (No. 4262913M now JC-559453L), 30 May 2005/27 Sep 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Somra Tana Bhagat (No. 4266460K now JC-559454N), 01 Jun 2005/19 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Hira Lal Yadav (No. 4262193W now JC-559455W), 01 Jun 2005

Hav Vidya Nand Prasad Yadav (No. 4262095Y now JC-559456Y), 01 Jun 2005

Hav Simanchal Behera (No. 42666151F now JC-559457F), 02 Jun 2005/30 Jan 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 30 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pascal Toppo (No. 4262171X now JC-559458K), 10 Jun 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Guhi Ram Murmu (No. 4266393K now JC-559459M), 10 Jun 2005/12 Jan 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Nageshwer Kumar Yadav (No. 4261153H now JC-559460F), 16 Jun 2005/01 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhu Sharan Singh (No. 4262394P now JC-559461K), 29 Jun 2005/19 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Sarbeswar Jena (No. 4262855N now JC-559462M), 01 Jul 2005/01 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Birual Kispatta (No. 4263991W now JC-559463P), 01 Jul 2005/01 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Bhajagovinda Das (No. 4262837L now JC-559464X), 14 Jun 2005/01 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Manoranjan Khakha (No. 4265238W now JC-559465A), 04 Jul 2005/20 May 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Katesh Tiwari (No. 4262069P now JC-559466H), 07 Jul 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Alexander Minz (No. 4262094N now JC-559467A), 05 Jul 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Nabin Prasad (No. 4261664M now JC-559468N), 04 Jul 2005/01 Jun 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)/Clerk

Hav Bijuel Lakra (No. 4262107A now JC-559428M), 11 Feb 2005/01 Nov 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sada Nanda Soren (No. 4264747H now JC-559429P), 07 Mar 2005/08 Nov 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sri Charan Mohapatra (No. 4262731Y now JC-559430K), 17 Mar 2005/01 Oct 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav/Clk Kameshwar Goswami (No. 4264228A now JC-559431M), 21 Mar 2005/28 Feb 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 28 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Anup Chand Meravi (No. 4266378P now JC-559432P), 24 Mar 2005/01 Nov 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Krushna Chandra Parichha (No. 4260830H now JC-559433X), 30 Mar 2005/12 Mar 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Minj (No. 4263004N now JC-559434A), 01 Apr 2005/13 Sep 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13 Sep 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Muni Singh (No. 4260976W now JC-559435H), 07 Apr 2005/01 Feb 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Chuda Mani Bag (No. 4266676L now JC-559436L), 08 Apr 2005/12 Jan 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jaimangal Saw (No. 4260882Y now JC-559437N), 16 Apr 2005/01 Feb 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Mangal Oraon (No. 4266858Y now JC-559438W), 20 Apr 2005/20 Nov 2004 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Mahesh Kumar Singh (No. 4261473X now JC-559439Y), 27 Apr 2005/05 Apr 2005 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (RT) (Pandit)

Ram Jus Tripathi (JC-559377K), 11 Dec 2004

Bal Krishan Pandey (JC-559401P), 11 Jun 2005

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Chandan Singh (No. 3177887H now JC-489696W), 02 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 11 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Asu Ram Choudhary (No. 3179752A now JC-489697Y), 04 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Pita Ram (No. 3179768L now JC-489698F), 01 May 2005

Hav Girdhari Ram (No. 3179772N now JC-489699K), 01 May 2005

Hav Tikam Singh (No. 3179978L now JC-489700N), 01 May 2005

Hav Vijai Kumar (No. 3177888L now JC-489701W), 01 Jun 2005

Hav Madan Singh (No. 3175709F now JC-489702Y), 01 July 2005

Hav Rohitashwa Kumar Jakhar (No. 3179912P now JC-489703F), 02 Jul 2005

Hav Ramesh Chandra (No. 3180794Y now JC-489704K), 24 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 July 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Om Parkash (No. 3182135H now JC-489705M), 02 Jul 2005

Hav Shri Bhagwan (No. 3180574P now JC-489706P), 02 Jul 2005

Hav Satbir Singh (No. 3177895F now JC-489707X), 04 Jul 2005

Hav Jeena Ram (No. 3175202A now JC-489708A), 05 Jul 2005

Hav Dhokal Ram (No. 3175410P now JC-489709H), 05 Jul 2005

Hav Bhupender Singh (No. 3175415N now JC-489710X), 05 Jul 2005

Hav Hoshiyar Singh (No. 3179422F now JC-489711A), 08 Jul 2005

Hav Yesh Pal Singh (No. 3179430A now JC-489712H), 08 Jul 2005

Hav Harendra Singh (No. 3175538A now JC-489713L), 09 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 July 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Randhir Singh (No. 3175552M now JC-489714N), 01 Aug 2005

Hav Anar Singh (No. 3175147P now JC-489715W), 01 Aug 2005

Hav Raja Ram Gujar (No. 3176975M now JC-489716Y), 01 Aug 2005

Hav Rajbir Singh (No. 3175175F now JC-489717F), 07 Aug 2005

Hav Sarvjit Singh (No. 3175793M now JC-489718K), 10 Aug 2005

Hav Ranjeet Singh Jat (No. 3175157Y now JC-489719M), 10 Aug 2005

Hav Virender Singh (No. 3177631A now JC-489720F), 21 Aug 2005

Hav Somvir (No. 3185882Y now JC-489721K), 01 Sep 2005

Hav Dalbir Singh (No. 3176954W now JC-489689A), 09 Nov 2005

Hav Zale Singh (No. 3177393Y now JC-489690P), 20 Mar 2005

Hav Uttam Singh (No. 3178853F now JC-489691X), 20 Mar 2005

Hav Hans Raj (No. 3179120P now JC-489692A), 20 Mar 2005

Hav Kaptan Singh (No. 3179367W now JC-489693H), 14 Apr 2005

Hav Shiv Pal (No. 3177621W now JC-489694L), 28 Jun 2005

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jaipal (No. 3177382M now JC-489695N), 01 July 2005

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Jagat Bahadur Thapa (No. 5449921M now JC-617741L), 01 Jul 2005

Hav Ai Bahadur Gurung (No. 5449971X now JC-617742N), 01 Jul 2005

Hav Keman Singh Ale (No. 5449284F now JC-617736A), 01 Jul 2005

Hav Sak Bahadur Pun (No. 5449294L now JC-617737H), 01 Jul 2005

Hav Harka Bahadur Pun (No. 5449393N now JC-617738L), 01 Jul 2005

Hav Mantri Jang Gurung (No. 5449891A now JC-617739N), 01 Jul 2005

Hav Bharat Kumar Rana (No. 5449932Y now JC-617740H), 01 Jul 2005

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Surender Pal Singh Rathi (No. 3182495Y now JC-489663L), 27 Sep 2004

Hav Ramesh Kumar (No. 3177498M now JC-489664N), 16 May 2005

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Ram (No. 3175387M now JC-489665W), 31 Jan 2005

Hav Mahaveer Prasad (No. 3180587M now JC-489666Y), 01 May 2005

Hav Pooran Ram Bazya (No. 3179527L now JC-489684F), 25 May 2005

Hav Ishwar Singh (No. 3181034H now JC-489685K), 26 June 2005

Hav Braj Kishore (No. 3176834X now JC-489686M), 13 Jul 2005

Hav Mahendra Singh (No. 3176983L now JC-489687P), 01 Aug 2005

Hav Padam Singh (No. 3178285F now JC-489688X), 01 Aug 2005

Hav Deokaran Singh (No. 3179272W now JC-489680L), 07 May 2005

Hav Jai Parkash (No. 3179391M now JC-489681N), 08 May 2005

Hav Maha Singh Dagar (No. 3181103N now JC-489682W), 01 June 2005

Hav Rajvir Singh (No. 3180360Y now JC-489683Y), 01 Jul 2005

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Surinder Singh (No. 4464027L now JC-509230X), 01 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2004).

Hav Ajmer Singh (No. 4471178M now JC-509231A), 01 Jul 2004

Hav Jaswinder Singh (No. 4467823Y now JC-509232H), 12 Nov 2004

Hav Gurmel Singh (No. 4468755H now JC-509233L), 12 Nov 2004

Hav Makhan Singh (No. 4466930N now JC-509234N), 13 Dec 2004

Hav Amrik Singh (No. 4469268P now JC-509235W), 29 Dec 2004

Hav Gurjit Singh (No. 4469386H now JC-509236Y), 30 Dec 2004

Hav Baljinder Singh (No. 4469392L now JC-509237F), 15 Jan 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2005).

Hav Ranjit Singh (No. 4462595X now JC-509238K), 12 Jan 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2005).

Hav Bhim Singh (No. 4465710X now JC-509239M), 11 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 13 Jan 2005).

Hav Baldev Singh (No. 4462343L now JC-509240F), 01 Feb 2005

Hav Dhir Singh (No. 4471400H now JC-509241K), 21 Feb 2005

Hav Kesar Singh (No. 4466984P now JC-509242M), 21 Mar 2005

Hav Gurdev Singh (No. 4462520A now JC-509243P), 01 Apr 2005

Hav Amrik Singh (No. 4466988L now JC-509245A), 03 Apr 2005

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav (Clk) Kumar Shen (No 4465643X now JC-509244X), 09 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 01 Apr 2005).

THE PUNJAB REGIMENT

(To be Naib Subedar Clks)

Hav Clk Lakhwinder Singh (No. 2475383Y now JC-429695K), 28 Oct 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Tulsi Dass Thakur (No. 2476276K now JC-429696M), 01 Nov 04

Hav Clk Daljeet Singh (No. 2476640X now JC-429770H), 15 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 20 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Desh Raj Samkaria (No. 2476883H now JC-429713F), 01 Jan 2005

Hav Clk Shashi Kumar (No. 2476971Y now JC-429771L), 09 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Kanwar Pal Sharma (No. 2477271X now JC-429786N), 01 Feb 05

Hav Clk Subash Chander Vaidya (No. 2477273H now JC-429800P), 19 Apr 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Apr 05 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Balbir Singh (No. 2477276N now JC-429788Y),
01 Apr 05

Hav Clk Ram Prasad Sharma (No. 2477279K now JC-429801X), 12 Apr 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Apr 05 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Mohander Singh (No. 2477284P now JC-429808F), 19 May 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 May 05 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar

Hav Sat Pal (No. 2479618X now JC-429731K), 28 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Jul 04 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Chand (No. 2475137N now JC-429760Y), 07 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Jul 04 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish Singh (No. 2472754L now JC-429759K), 24 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Jul 04 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 2474387H now JC-429752A), 04 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 23 Aug 04 without effect on pay and allowances).

Hav Shamsher Singh (No. 2480754A now JC-429773W), 14 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Sep 04 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chander (No. 2474479P now JC-429753H), 15 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Sep 04 without effect on pay and allowances).

Hav Avtar Singh (No. 2478619N now JC-429774Y), 20 Oct 04

(Gtd ante dated seniority wef 15 Sep 04 without effect on pay and allowances).

Hav Manohar Lal (No. 2475287K now JC-429754L), 15 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 23 Sep 04 without effect on pay and allowances).

Hav Balwinder Singh (No. 2477457L now JC-429744F), 07 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Satpal Singh (No. 2475378N now JC-429745K), 14 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Joginder Singh (No. 2474610F now JC-429743Y), 11 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Swaran Singh (No. 2474341A now JC-429732M), 19 Nov 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Sat Pal Singh (No. 2477020N now JC-429775F), 18 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Subash Chander (No. 2474247W now JC-429751X), 26 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Onkar Singh (No. 2474442N now JC-429757Y), 03 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Dass (No. 2477535N now JC-429761F), 12 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Darshan Kumar (No. 2479868Y now JC-429762K), 12 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Ashok Kumar (No. 2475039N now JC-429763M), 12 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 2475539L now JC-429764P), 12 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 2474875L now JC-429733P), 05 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Chaman Lal (No. 2480133F now JC-429755N), 21 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 31 Oct 04 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdev Singh (No. 2477931K now JC-429765X), 24 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Kulwant Singh (No. 2475311P now JC-429746M), 27 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Jatinder Singh (No. 2480152M now JC-429789F), 28 Mar 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh Bhardwaj (No. 2474349M now JC-429734X), 05 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Ravi Dutt Sharma (No. 2478537L now JC-429735A), 11 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Battan Singh (No. 2474282Y now JC-429736H), 13 Dec 04

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar (No. 2479089W now JC-429766A), 17 Feb 05

(Gtd ante dated seniority wef 01 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Bhuri Singh (No. 2474136Y now JC-429758F), 29 Jan 05

(Gtd ante dated seniority wef 12 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Singh (No. 2474415K now JC-429756W), 02 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 13 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Singh Thabal (No. 2476453Y now JC-429737L), 22 Dec 2004

(Gtd ante dated seniority wef 17 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Balkar Singh (No. 2475007L now JC-429747P), 17 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 29 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Dhian Singh Bhangdouri (No. 2476536K now JC-429738N), 10 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 30 Nov 04 without effect on pay and allowances).

Hav Surinder Pal Singh (No. 2479006A now JC-429739W), 23 Dec 2004

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhbir Singh (No. 2474340 X now JC-429749A), 08 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhdev Singh (No. 2477419L now JC-429748X), 08 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Didar Singh (No. 2477593X now JC-429767H), 24 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Bahadur Singh (No. 2476205H now JC-429768L), 24 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Parvinder Singh (No. 2475830X now JC-429777M), 23 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhminder Singh (No. 2478354P now JC-429776K), 07 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar Sharma (No. 2475155W now JC-429769N), 07 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Tilak Raj (No. 2481999H now JC-429790W), 19 Apr 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Bhavishan Singh (No. 2475325P now JC-429791Y), 19 Apr 2005

(Gtd ante dated seniority wef 03 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Paramjit Singh (No. 2477511K now JC-429740L), 10 Jan 2005

(Gtd ante dated seniority wef 07 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 2478973H now JC-429792F),
25 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 30 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Darshan Singh (No. 2476328P now JC-429802A), 7 May 2005

(Gtd ante dated seniority wef 31 Dec 04 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhwindar Singh (No. 2475730M now JC-429741N), 01 Jan 2005

Hav Rashpal Singh (No. 2475412H now JC-429778P), 15 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal (No. 2476939K now JC-429780M), 01 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Jan 05 without effect on pay and allowances).

Hav Darshan Kumar (No. 2474420P now JC-429779X), 01 Jan 2005

Hav Harbans Lal (No. 2473211Y now JC-429742W), 01 Jan 2005

Hav Mohinder Singh (No. 2473121K now JC-429781P), 01 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 17 Jan 05 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhbir Singh (No. 2478040N now JC-429793K), 18 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupinder Singh (No. 2477567W now JC-429783A), 02 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Kulwant Singh (No. 2479485M now JC-429782X), 15 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Jagir Singh (No. 2476994A now JC-429794M), 07 Feb 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Narendar Gajraj (No. 2474448P now JC-429795P), 10 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Sarbjit Singh (No. 2478725M now JC-429803H), 10 May 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Karnail Singh Kapoor (No. 2479235L now JC-429796X), 25 Mar 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Paramjit Singh (No. 2478831H now JC-429797A), 04 Apr 2005

(Gtd ante dated seniority wef 11 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Janak Raj (No. 2474840P now JC-429805N), 06 May 2005

(Gtd ante dated seniority wef 26 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Bihari Lal (No. 2474925L now JC-429804L), 06 May 2005

(Gtd ante dated seniority wef 26 Feb 05 without effect on pay and allowances).

Hav Lakhbir Singh (No. 2475587L now JC-429798H), 01 Apr 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 Mar 05 without effect on pay and allowances).

Hav Fagbir Singh (No. 2477875W now JC-429784H), 01 Mar 2005

Hav Lekh Raj (No. 2475165A now JC-429785L), 01 Mar 2005

Hav Jaswinder Singh (No. 2478042Y now JC-429799L), 01 Apr 2005

Hav Jagroop Singh (No. 2476215M now JC-429806W), 12 May 2005

(Gtd ante dated seniority wef 01 May 05 without effect on pay and allowances).

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Pritham Singh (No. 3985202P now JC-520150A), 07 Jul 2005 *

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raghubir Singh (No. 3985291Y now JC-520151H), 01 Feb 2005

Hav Tilak Raj (No. 3981068X now JC-520152L), 14 Feb 2005 *

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gian Chand (No. 3983669F now JC-520153N), 15 Mar 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Lekh Raj (No. 3984162M now JC-520154W), 30 Mar 2005

Hav Prakash Chand (No. 3984185N now JC-520147A), 01 Apr 2005

Hav Ramesh Kumar (No. 3985129F now JC-520148H), 15 June 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav Subhash Kumar Dhiman (No. 3985332X now JC-520149L), 01 June 2005

To be Nb Sub

Hav Amrit Lal (No. 3983110K now JC-520057Y), 26 Sep 2004

Hav Sarup Singh (No. 3983986H now JC-520058F), 01 Oct 2004

Hav Mohan Singh (No. 3983126P now JC-520059K), 01 Nov 2004

Hav Rajinder Singh (No. 3983209A now JC-520060Y), 01 Nov 2004

Hav Kumar Chand (No. 3985549F now JC-520061F), 09 Nov 2004

Hav Dalbir Singh (No. 3987955A now JC-520062K), 28 Jan 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh (No. 3982771X now JC-520063M), 01 Dec 2004

Hav Janak Raj (No. 3983226A now JC-520064P), 01 Dec 2004

Hav Khem Singh (No. 3983249F now JC-520065X), 01 Dec 2004

Hav Surinder Kumar (No. 3985609L now JC-520066A), 01 Dec 2004

Hav Lal Chand (No. 3987397K now JC-520067H), 01 Dec 2004

Hav Madan Singh (No. 3983702N now JC-520068L), 16 Dec 2004

Hav Hari Dass (No. 3982779K now JC-520069N), 28 Dec 2004

Hav Mahi Ram Sharma (No. 3988411X now JC-520070H), 01 Jan 2005

Hav Kuldeep Singh Chauhan (No. 3983227H now JC-520071L), 12 Jan 2005

Hav Surender Kumar (No. 3986258N now JC-520072N), 21 Jan 2005

Hav Mohinder Singh (No. 3981436F now JC-520073W), 08 Feb 2005

Hav Kavinder Singh (No. 3982579N now JC-520074Y), 08 Feb 2005

Hav Harbans Singh (No. 3983648L now JC-520075F), 08 Feb 2005

Hav Ranjit Singh (No. 3983723K now JC-520076K), 13 Feb 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Chandi Ram (No. 3985312K now JC-520077M), 01 Jan 2005

Hav/Clk Chiman Singh (No. 3985314P now JC-520078P), 24 Jan 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Jayoti Parkash Sharma (No. 3987296W now JC-520141Y), 08 May 2005*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 07 Oct 2004 without effect on pay and allowances).

Hav Kashmir Singh (No. 3983583H now JC-520142F), 05 Jan 2005

Hav Prakash Chand (No. 3984394L now JC-520143K), 27 Apr 2005

THE MAHAR REGIMENT

To be Sub Major (Clerk)

Sub Clk (GD) Dharampal Chauhan (JC-568310M), 01 Feb 2005

Sub Clk (GD) Bishan Singh Matwal (JC-568314H), 26 Apr 2005*

*(Granted Seniority in the rank of Sub Maj with effect from 12 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Clk (GD) Tara Chand Manhas (JC-568315L), 26 Apr 2005@

@(Granted Seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Clk (GD) Shankar Singh (JC-568350W), 05 Aug 2005\$

\$(Granted Seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

To be Sub (Clerk)

Nb Sub Clk (GD) Uttam Chand (JC-568752L), 06 Nov 2004*

*(Granted Seniority in the rank of sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk (GD) Jagtap Sudam Tukaram (JC-568753 N), 01 Feb 2005

Nb Sub Clk (GD) Kadam Bhagvant Baban (JC-568754 W), 01 Mar 2005

Nb Sub Clk (GD) Bijay Kumar Singh (JC-568778A), 02 Mar 2005@

@ (Granted Seniority in the rank of sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk (GD) Ram Swaroop Jat (JC-568843P), 11 April 2005#

#(Granted Seniority in the rank of sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk (GD) Raghubir Singh (JC-568855K), 02 Apr 2005\$

\$(Granted Seniority in the rank of sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk (GD) Shyam Singh (JC-568871F), 02 May 2005%

%(Granted Seniority in the rank of sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk (GD) Rakesh Kumar (JC-568874P), 04 July 2005**

** (Granted Seniority in the rank of sub wef 01 July 2005 without effect on pay and allowance).

To be Sub

Nb Sub Paras Nath Byash (JC-568979Y), 21 Jun 2004

@ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 May 2004).

Nb Sub Laxmi Dhar Naik (JC-568692F), 19 Jul 2004@@

@@ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Dhumane Vithal Ramlal (JC-568820N), 03 Jun 2004@@@

@@@ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Lal Singh (JC-568948Y), 14 Jun 2004#

(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Lalaram Chandra Tayade (JC-569041X), 03 Jun 2004##

(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-569083K), 13 Jun 2004###

(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Mempal Singh (JC-569078Y), 01 Jun 2004

Nb Sub Atiraj Singh Chouhan (JC-569080W), 26 Jun 2004\$

\$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004).

Nb Sub Gunamani Jena (JC-568950W), 10 Jul 2004\$\$

\$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004).

Nb Sub Jeet Singh (JC-568989H), 05 Jul 2004

Nb Sub Karan Singh (JC-569121P), 16 Aug 2004\$\$\$

\$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 20 Jul 2004).

Nb Sub Kalu Ram (JC-569122X), 03 Aug 2004%

%(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 20 Jul 2004).

Nb Sub Prafulla Kumar Sahoo (JC-568953K), 01 Aug 2004

Nb Sub Bhupal Singh (JC-569043H), 01 Aug 2004

Nb Sub MD Rejaul Haque (JC-569051F), 01 Aug 2004

Nb Sub Dharm Singh (JC-569271L), 13 Sep 2004%%

%(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004).

Nb Sub Detake Anandrao Babanrao (JC-569272N), 06 Sep 2004%%%

%(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004).

Nb Sub Ganesh Shriram Jadhav (JC-569088H), 24 Aug 2004*

*(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004).

Nb Sub Kambale Machhindra Kashinath (JC-569161W), 15 Aug 2004**

*(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004).

Nb Sub Ram Pal (JC-569179M), 14 Aug 2004***

*(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004).

Nb Sub Harish Chandra (JC-569180F), 21 Aug 2004

Nb Sub Krishan Lal (JC-568990 X), 02 Sep 2004@

@ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Sep 2004).

Nb Sub Sarkate Abhimanuu Arjun (JC-568996Y), 01 Sep 2004

Nb Sub Liakat Ali Mallik (JC-568998K), 01 Sep 2004

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-569053M), 01 Sep 2004
 Nb Sub Manpal Singh (JC-569090A), 01 Sep 2004
 Nb Sub Darshan Singh (JC-569082 F), 30 Sep 2004@@
 @@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 08 Sep 2004).
 Nb Sub Babu Ram (JC-569045N), 11 Sep 2004
 Nb Sub Santosh KR Paul (JC-569044L), 26 Sep 2004
 Nb Sub Surender Singh (JC-568735L), 01 Oct 2004
 Nb Sub Pawan Kumar (JC-568954M), 01 Oct 2004
 Nb Sub Deepak Singh Nayal (JC-569050Y), 01 Oct 2004
 Nb Sub Netake Bapu Bhahiru (JC-569031N), 16 Oct 2004@@@
 @@@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Swapan Kumar Biswas (JC-569006P), 14 Oct 2004#
 #(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Ramkaran Yadav (JC-568975H), 01 Oct 2004
 Nb Sub Jhirmal Singh (JC-569042A), 01 Oct 2004
 Nb Sub Satyapal Singh (JC-569048F), 15 Oct 2004##
 ##(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Trilok Giri (JC-569056A), 01 Oct 2004
 Nb Sub Narsi Lal (JC-569049K), 01 Oct 2004
 Nb Sub Hari Ram (JC-569057H), 27 Oct 2004###
 ###(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Sher Singh (JC-569058L), 03 Jan 2005\$
 \$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Malekar Sukhdeo Pandri (JC-569111L), 11 Nov 2004\$\$
 \$\$ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Dandi Vilas Pandurang (JC-569112N), 02 Dec 2004\$\$\$
 \$\$\$ (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Wagh Balasaheb Bagaji (JC-569114Y), 25 Nov 2004%
 %(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Anand singh (JC-569072X), 01 Oct 2004

Nb Sub Chander Singh (JC-569092L), 01 Oct 2004
 Nb Sub Ram Kumar (JC-569091H), 04 Oct 2004%%
 %% (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Umeshwar Singh (JC-569093N), 01 Oct 2004
 Nb Sub Bhuri Singh (JC-569073A), 01 Oct 2004
 Nb Sub Thakur Dass (JC-569094W), 01 Oct 2004
 Nb Sub Dalip Yeshwant Bhosle (JC-569074H), 01 Nov 2004%%
 %% (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Salve Ravan Punja (JC-569098M), 01 Nov 2004&
 & (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Ravinder Tulshiram Tayade (JC-569117M), 01 Nov 2004&&
 && (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Sukhbir Singh (JC-569084M), 01 Oct 2004
 Nb Sub Patel Suresh Kumar Ravji B (JC-569119X), 10 Nov 2004&&&
 &&& (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Lakhwant Singh (JC-569105X), 01 Oct 2004
 Nb Sub Vilas Babusa Ingle (JC-569144W), 01 Oct 2004
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-569146F), 02 Oct 2004*
 * (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Gurvinder Singh (JC-569106A), 01 Oct 2004
 Nb Sub Anup Singh Bhandari (JC-569153X), 01 Oct 2004
 Nb Sub Eknath Sukhadeo Rao Gawhale (JC-569214K), 01 Oct 2004
 Nb Sub Sukhinder Singh (JC-569126N), 01 Oct 2004
 Nb Sub Subhash Tukaram Ingle (JC-569166P), 01 Oct 2004
 Nb Sub Vidya Dhar (JC-569135P), 01 Oct 2004
 Nb Sub Ram Prasad (JC-569167X), 01 Oct 2004
 Nb Sub Om Prakash (JC-569195K), 04 Dec 2004**
 ** (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).
 Nb Sub Harendra Singh (JC-569197P), 20 Oct 2004***
 *** (Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004).

Nb Sub Roshan Lal (JC-569033Y), 11 Oct 2004	Hav Clk (GD) Sarwan Singh (No. 4554444Y now JC-569469K), 01 Dec 2004
Nb Sub Jit Singh (JC-568976L), 01 Nov 2004	Hav Clk (GD) Rajbir Singh (No. 4554877W now JC-569511X), 03 Feb 2005@
Nb Sub Narendar Singh (JC-568977N), 09 Nov 2004@	@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).
@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).	Hav Clk (GD) Puran Singh Chauhan (No. 4555087N now JC-569512A), 01 Feb 2005
Nb Sub Ram Pal (JC-569136X), 10 Nov 2004@@	Hav Clk (GD) Swaran Dass Sharma (No. 3382677W now JC-569513H), 01 Feb 2005
@@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).	Hav Clk (GD) Ram Naresh Chauhan (No. 4556039A now JC-569540M), 01 Mar 2005
Nb Sub Hanuman Singh Shekhawat (JC-569137A), 01 Nov 2004	Hav Clk (GD) Parmar Remesh Chandra Narayn Bhai (No. 4556062N now JC-569541P), 21 Mar 2005\$
Nb Sub Ravi Kumar (JC-569177F), 03 Jan 2005@@	\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).
@@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2004).	Hav Clk (GD) Desh Raj (No. 4556063W now JC-569569P), 06 Apr 2005#
Nb Sub Dharmvir Singh (JC-569328P), 01 Nov 2004	\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Hari Ram (JC-569257Y), 01 Nov 2004	Hav Clk (GD) Vikram Singh (No. 4553168P now JC-569570K), 20 Apr 2005*
Nb Sub Rajendra Singh (JC-568991A), 01 Dec 2004	*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Mar 2005 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Inder Pal (JC-568978W), 13 Dec 2004@@@	Hav Clk (GD) Subash Chandra (No. 4553398H now JC-569571M), 24 Apr 2005%
@@(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004).	%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Jaibir Singh Shekhawat (JC-569066K), 01 Dec 2004	Hav Clk (GD) Yaswant Singh Bhandari (No. 4554110K now JC-569572P), 13 Apr 2005\$.
Nb Sub Vanakhande Shripati Maruti (JC-569274Y), 01 Dec 2004	\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Baramatkar Bhimrao Balu (JC-569275F), 01 Dec 2004	To be Naib Subedar
Nb Sub Keshao Ganpat Sonone (JC-569169H), 07 Jan 2005#	Hav Vinod Singh (No. 7430649H now JC-569542X), 25 Jan 2005@
\$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004).	@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004)
Nb Sub Kedar Singh Gurjar (JC-569071P), 07 Jan 2005##	Hav Ranka Nidhi Nayak (No. 4555752Y now JC-569543A), 06 Jan 2005@@
##(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 02 Dec 2004).	@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004)
Nb Sub Chan Ram (JC-569120M), 16 Feb 2005###	Hav Raj Pal (No. 4553608X now JC-569544H), 18 Jan 2005@@@
###(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 08 Dec 2004).	@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004)
Nb Sub Jaman Singh (JC-569123A), 22 Dec 2004	Hav Kamlesh Chandra (No. 4555521P now JC-569545L), 24 Dec 2004#
Nb Sub Rajput Hira Singh Tulshi Ram (JC-569087A), 09 Feb 2005\$	
\$(Granted Seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005).	
To be Nb Sub (Clk) (GD)	
Hav Clk (GD) Kamble Shankar Namdeo (No. 4551998M now JC-569444X), 01 Nov 2004	

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2004)

Hav Jai Karan (No. 4555894H now JC-569547W), 24 Dec
2004###

###(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Oct 2004)

Hav Angad Kumar Singh, SM (No. 4559900H now JC-
569546N), 24 Dec 2004##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Oct 2004)

Hav Shiv Dutta (No. 4559714M now JC- 569548Y), 24
Dec 2004\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 24 Oct 2004)

Hav Bikram Singh (No. 4556065F now JC-569549F),
24 Dec 2004\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Nov 2004)

Hav Vikram Singh (No. 4556715K now JC-569550W),
24 Dec 2004\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Nov 2004)

Hav Jag Ram (No. 4555778A now JC-569551Y), 24 Dec
2004%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Dec 2004)

Hav Balwant Singh (No. 4556002Y now JC-569552F),
24 Dec 2004%%

%%(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Dec 2004)

Hav Gouda Kishor Raju (No. 4554172K now JC-
569553K), 23 Jan 2005%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 19 Dec 2004)

Hav Bimal Ch Barman (No. 4554256X now JC-
569554M), 23 Jan 2005&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 20 Dec 2004)

Hav Alhat Popap Vitthal (No. 4558885M now JC-
569555P), 12 Feb 2005&&

&&(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 21 Dec 2004)

Hav Moti Chandra Singh (No. 4552382L now JC-
569556X), 08 Jan 2005&&&

&&&(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jan 2005)

Hav Tayade Santosh Jayaram (No. 4557516H now JC-
569557A), 08 Feb 2005*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2005)

Hav Randive Shankar Sambhaji (No. 4559453K now JC-
569558H), 21 Jan 2005**

**(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2005)

Hav Patawakar Suresh Khanduji (No. 4557851M now JC-
569559L), 08 Feb 2005***

*** (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jan 2005)

Hav Kambale Shrikant Yashwant (No. 4557811L now JC-
569560A), 21 Jan 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jan 2005)

Hav Pramod Kumar (No. 4553333P now JC-569561H),
10 Feb 2005@@

@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 12 Jan 2005)

Hav Rajinder Singh (No. 4556802X now JC-569562L),
31 Jan 2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 16 Jan 2005)

Hav Jagat Singh (No. 4551857X now JC-569563N),
14 Feb 2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 18 Jan 2005)

Hav Kamble Baburao Nana (No. 4558733L now JC-
569564W), 10 Feb 2005##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 21 Jan 2005)

Hav Raj Pal Singh (No. 4553391Y now JC-569565Y),
16 Feb 2005###

###(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Feb 2005)

Hav Nandlal Gurjar (No. 4553816M now JC-569566),
02 Feb 2005\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2005)

Hav Krishan (No. 45554948M now JC-569567K), 07 Feb
2005\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Feb 2005)

Hav Thoke Sopan Rambhau (No. 4559529Y now JC-
569568M), 02 Mar 2005\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Mar 2005)

9 GR

To be Naib Subedar

Rank, Name, Army No/JC No. and Date of Promotion

Hav Bishnu Bahadur Chhetri (No. 5845132W now JC-629699K), 01 May 2005/22 Mar 2005*

Hav Naresh Bahadur Chhetri (No. 5845149K now JC-629700N), 23 May 2005/02 Apr 2005*

Hav Hari Prasad Subedi (No. 5845245Y now JC-629701W), 23 May 2005/13 Apr 2005*

Hav Bishnu Bahadur Chhetri (No. 5845215F now JC-629702Y), 06 Jun 2005/12 May 2005*

Hav Ghan Bahadur Chhetri (No. 5845542M now JC-629703F), 03 Jun 2005/15 May 2005*

Hav Dhor Bahadur Rimal (No. 5845287L now JC-629704K), 01 Jul 2005/01 Jun 2005*

Hav Naina Bahadur Thapa (No. 5845788L now JC-629705M), 04 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Om Bahadur Khan (No. 5846691M now JC-629706P), 27 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Bed Bahadur KC (No. 5845639X now JC-629707X), 27 Jun 2005/01 Jun 2005*

Hav Yam Bahadur Khattri (No. 5845772A now JC-629708A), 01 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Jag Bahadur Chhetri (No. 5845444M now JC-629709H), 01 Jul 2005

Hav Tiku Bahadur Malla (No. 5846110K now JC-629710X), 02 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Ishwar Singh Thapa (No. 5846572W now JC-629711A), 11 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Khem Bahadur Chhetri (No. 5845483L now JC-629712H), 01 Jul 2005

Hav Lesh Bahadur Thapa (No. 5845493P now JC-629713L), 01 Jul 2005

Hav Jit Bahadur Chhetri (No. 5845564L now JC-629714N), 01 Jul 2005

Rect (RT) Murlee Dhar Pandey (No. 629665W now JC-629665W), 19 Feb 2005

Hav Sher Bahadur Chhetri (No. 5845530X now JC-629695N), 26 Apr 2005/05 Dec 2005*

Hav Prem Bahadur Chhetri (No. 5845588P now JC-629696W), 03 Apr 2005/10 Jan 2004*

Hav/Clk Vinod Kumar Pathak (No. 5846288A now JC-629697Y), 01 Feb 2005/01 Nov 2003*

Hav Chitra Bahadur Malla (No. 5845555K now JC-629698F), 31 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hav Shiva Prasad Chhetri (No. 5845863K now JC-629715W), 01 Jul 2005

Hav Nanda Bir Chhetri (No. 5845650W now JC-629716Y), 05 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Khadka Bahadur Thapa (No. 5845668M now JC-629717F), 05 Jul 2005/01 Jul 2005*

Hav Megh Bahadur KC (No. 5845518W now JC-629719M), 01 Aug 2005/01 May 2005*

Hav Nar Bahadur Chhetri (No. 5845524K now JC-629720F), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Hav/Clk Govind Singh Bhauryal (No. 5846301Y now JC-629721K), 01 Aug 2005

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

3 GR

To be Naib Subedar

Rank, Name, Army No/JC No. and Date of Promotion

Hav Tej Bahadur Rana (No. 5245247M now JC-607605F), 01 Jan 2005

Hav Nur Bahadur Thapa (No. 5245409M now JC-607606K), 01 Jan 2005

Hav Lal Bahadur Khatri (No. 5245422W now JC-607607M), 01 Jan 2005

Hav Chet Bahadur Thapa (No. 5245461P now JC-607608P), 01 Jan 2005

Hav Ale Deb Bahadur (No. 5245462X now JC-607609X), 09 Mar 2005/01 Jan 2005*

Hav Mekhras Gurung (No. 5244799N now JC-607600H), 01 Apr 2005/01 Nov 2005*

Hav Laxmi Kanta Bhandari (No. 5245424F now JC-607601L), 07 Mar 2005/01 Jan 2005*

Hav Purna Bahadur Thapa (No. 5245610X now JC-607602N), 01 Apr 2005/01 Jan 2005*

Hav Dudh Bahadur Gurung (No. 5244887K now JC-607603W), 01 Apr 2005/01 Jan 2005*

Hav Om Narayan Newar (No. 5245227Y now JC-607604Y), 01 Jan 2005/01 Jan 2005*

Hav Lila Bahadur Thapa (No. 5245478H now JC-607610M), 26 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Jit Kumar Rana (No. 5245530A now JC-607611P), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Bharat Bahadur Gurung (No. 5245864P now JC-607612X), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Sheskant Thapa (No. 5245629W now JC-607613A), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Chitra Bahadur Thapa (No. 5245630L now JC-607614H), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Govind Bahadur Gurung (No. 5245640P now JC-607615L), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Raj Kumar Thapa (No. 5245642A now JC-607616N), 10 Feb 2005/01 Jan 2005*

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 5245643H now JC-607617W), 25 Feb 2005/01 Feb 2005*

Hav Buddhi Bahadur Thapa (No. 5245686X now JC-607618H), 19 Mar 2005/12 Feb 2005*

Hav Bom Bahadur Gurung (No. 5245685P now JC-607619F), 19 Mar 2005/12 Feb 2005*

Hav Tej Bahadur Thapa (No. 5245688H now JC-607620W), 19 Mar 2005/12 Feb 2005*

Hav Ganesh Bahadur Rana (No. 5245667M now JC-607621K), 19 Mar 2005/12 Feb 2005*

Hav Purna Bahadur Rana (No. 5244671H now JC-607622F), 04 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hav Ganesh Kumar Shrestha (No. 5244687N now JC-607623K), 04 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hav Dhan Prasad Pun (No. 5244697P now JC-607624M), 04 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hav Shyam Lal Thapa (No. 5244966Y now JC-607635Y), 01 Apr 2005

Hav/Clk Surendra Singh Pundir (No. 5245171X now JC-607636F), 02 Apr 2005

Hav Kharka Bahadur Pun (No. 5244284N now JC-607637K), 31 May 2005, 06 Mar 2005*

Hav Dev Bahadur Pun (No. 5245551W now JC-607638M), 12 Jun 2005, 06 Mar 2005*

Hav Falendra Prasad Gurung (No. 5245551W now JC-607639P), 31 May 2005, 06 Mar 2005*

Hav Durga Bahadur Thapa (No. 5244672L now JC-607625P), 04 Mar 2005, 01 Mar 2005*

Hav Ganjaman Gurung (No. 5244882L now JC-607626X), 01 Apr 2005/01 Mar 2005*

Hav Purna Bahadur Thapa (No. 5244910M now JC-607627A), 01 Apr 2005, 01 Mar 2005*

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5244839K now JC-607628H), 01 Apr 2005, 01 Mar 2005*

Hav Panch Bahadur Gurung (No. 5244917W now JC-607629L), 01 Apr 2005, 01 Mar 2005*

Granted Seniority without effect on pay and allowances

Hav (Clk) Jay Ram Yadava (No. 5245230Y now JC-607646L), 01 Jul 2005

Hav Tej Bahadur Gurung (No. 5244723N now JC-607647N), 01 Jul 2005

Hav Om Bahadur Gurung (No. 5244730K now JC-607648W), 01 Jul 2005

Hav You Bahadur Rana (No. 5244789K now JC-607649Y), 01 Jul 2005

Hav Dev Bahadur Thapa (No. 5245606P now JC-607650N), 01 Jul 2005

Hav Jay Bahadur Ghale (No. 5245646W now JC-607651W), 01 Jul 2005

Hav Rabindra Gurung (No. 5245531F now JC-607640K), 11 Jun 2005, 06 Mar 2005*

Hav Mantri Jung Gurung (No. 5245556P now JC-607641M), 11 Jun 2005, 01 Mar 2005*

Hav Yam Bahadur Rana (No. 5244698A now JC-607642P), 01 Jun 2005

Hav Hem Bahadur Thapa (No. 5245477A now JC-607643X), 27 Jun 2005, 01 Jun 2005*

Hav Man Prasad Thapa (No. 5245486F now JC-607644A), 08 Jun 2005, 01 Jun 2005*

Hav Om Narayan Shrestha (No. 5245506K now JC-607645H), 25 Jun 2005, 01 Jun 2005*

Hav Jas Bahadur Gurung (No. 5244911P now JC-607630A), 01 Apr, 01 Mar 2005*

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5245840L now JC-607631H), 19 Mar 2005, 01 Mar 2005*

Hav Dil Bahadur Thapa (No. 5245928P now JC-607632L), 24 Mar 2005, 01 Mar 2005*

Hav Ramdhani Yadav (No. 5245157L now JC-607633N), 01 Apr 2005

Hav Ram Bahadur Thapa (No. 5244938M now JC-607634W), 01 Apr 2005

*(Granted Seniority without effect on pay and allowances)

INFANTRY 11 GR

To be Sub Major

Sub Mani Prasad Rai (JC-634006L) 01 Aug 2005

To be Sub

Nb Sub Ram Bahadur Rai (JC-634492N), 23 Jul 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2005)

Nb Sub Dhan Bahadur Limbu (JC-634493W), 24 Jun 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2005)

Nb Sub Shyam Prakash Rai (JC-634504X), 01 Jul 2005

Nb Sub Rajesh Kumar Gurung (JC-634526W), 23 Jul 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Jul 2005)

To be Nb Sub

Hav Pancha Bahadur Limbu (No. 9419594W now JC-634624W), 01 Feb 2005

Hav Gajendra Subba (No. 9417581A now JC-634625Y), 01 Feb 2005

Hav Ratan Bahadur (No. 9417507Y now JC-634626F), 01 Feb 2005

Hav Laxmi Bahadur (No. 9417508F now JC-634627K), 01 Feb 2005

Hav Lal Bahadur Rai (No. 9417677H now JC-634628M), 01 Feb 2005

Hav Rana Bahadur Rai (No. 9417803K now JC-634629P), 12 Mar 2005

(Gtd Seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2005)

Hav Ramesh Kumar Rai (No. 9419442P now JC-634630K), 08 Feb 2005

(Gtd Seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2005)

Hav Dev Prakash Rai (No. 9419863X now JC-634631M), 01 Feb 2005

Hav Resam Bahadur Rai (No. 9417613X now JC-634632P), 08 Feb 2005

(Gtd Seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2005)

Hav Nanda Lal Chhetri (No. 9417791A now JC-634633X), 12 Feb 2005

(Gtd Seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2005)

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Raj Kumar (JC-412608P), 01 May 2005

Nb Sub Ranjit Singh Rathore (JC-412779F), 01 Jul 2005

Nb Sub Raghuraj Singh (JC-412572F), 01 Jul 2005

Nb Sub Roshan Lal (JC-412688X), 01 Aug 2005

Nb Sub Madho Ram Rana (JC-412720F), 01 Aug 2005

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Nehpal Singh (JC-412527P), 01 Jul 2005

Nb Sub (Clk) Sher Singh Rathore (JC-412512M), 01 Sep 2005

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Bel Bahadur Pun (No. 5750796Y now JC-623615P), 12th Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Lok Krishna Gurung (No. 5751565P now JC-623616X), 30th Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08th Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Prasad Rana (No. 5750987N now JC-623619L), 30th Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Gyan Bahadur Thapa (No. 5750533A now JC-623617A), 04th Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Resham Bahadur Thapa (No. 5750437L now JC-623618H), 02nd Mar 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Giriman Gurung (No. 5750501X now JC-623620A), 01st Apr 2005*

Hav Purna Bahadur Thapa Magar (No. 5749759Y now JC-623621H), 25th Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bahadur KC (No. 5750775H now JC-623622L), 17th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bir Bahadur Thapa (No. 5750638K now JC-623623N), 17th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nar Bahadur Mukhia (No. 5750324H now JC-623625Y), 04th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gem Bahadur Rana Magar (No. 5751215H now JC-623624W), 01st Jun 2005

Hav Tul Bahadur Thapa (No. 5750970A now JC-623626F), 02nd Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2005 without effect on pay and allowances)

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Davale Pandurang Kundalkrao (No. 2787249Y now JC-459527A), 03rd Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sonawane Ratan Nivarutti (No. 2782229F now JC-459528H), 28th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Naik Shivaji Ramu (No. 2783905X now JC-459529L), 08th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhalerao Ramesh Padmakar (No. 2783870M now JC-459530A), 02nd Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ghatage Raghunath Appasaheb (No. 2785622P now JC-459531H), 02nd Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Pawar Madhukar Bhimrao (No. 2780581M now JC-459532L), 05th May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jadhao Dilipkumar Vinayak (No. 2787563M now JC-459533N), 31st May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ingale Subhash Dattatray (No. 2779559P now JC-459534W), 16th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 07 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Raosaheb Vishwanath Mhaske (No. 2781046Y now JC-459536F), 25th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Darkunde Mahadev Jagannath (No. 2781618P now JC-459537K), 25th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Powar Dipak Shripat (No. 2786245W now JC-459538M), 04th Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Tanaji Bamnaji (No. 2785460P now JC-459540K), 01st Jul 2005*

Hav Suresh Desai (No. 2785604M now JC-459541M), 04th Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Abinash Chandra Goswami (No. 2780916Y now JC-459535Y), 01st Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Prahalad Chandra Pal (No. 2781209F now JC-459539P), 01st Jul 2005.

Infantry

The Sikh Regiment
To be Subedar Major

Sub Swaran Singh, SM* (JC-498048P), 01 Aug 2005

To be Subedars

Nb Sub Sher Singh (JC-499166P), 30 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kuldip Singh (JC-499157N), 08 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 08 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Balwinder Singh (JC-499197P), 13 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-499082F), 09 May 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Resham Singh (JC-499206L), 13 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nazar Singh (JC-499259X), 05 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhvir Singh (JC-499001W), 02 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 07 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kashmir Singh (JC-499192W), 14 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dilbag Singh (JC-499261F), 17 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk Daya Nand (JC-498970K), 01 Jul 2005

To be Nb Sub

Hav Jaspal Singh (No.3386016N now JC-499622P), 06 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Amarjit Singh (No. 3387247W now JC-499623X), 15 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 3389639H now JC-499624A), 23 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Gurmaj Singh (No. 3389768H now JC-499625H), 23 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balbir Singh (No. 3384179H now JC-499626L), 14 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Shamsher Singh (No. 3389045N now JC-499627N), 05 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Surjit Singh (No. 3384594K now JC-499628W), 14 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Gurinder Singh (No. 3387386A now JC-499629Y), 14 Aug 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Amar Singh (No. 3385244K now JC-499630N), 01 Aug 2005

To be Nb Sub

Hav Sulakhan Singh (No. 3386034W now JC-499601Y), 04 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mohan Singh (No. 3386058A now JC-499602F), 05 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Kuldip Singh (No. 3387985A now JC-499603K), 19 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sukhpal Singh (No. 3387110K now JC-499604M), 27 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 3386390W now JC-499605P), 01 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Harminder Singh (No. 3386741A now JC-499606X), 01 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Hardev Singh (No. 3387666N now JC-499607A), 05 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Surinder Singh (No. 3387591F now JC-499608H), 14 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mahinder Singh (No. 3387607F now JC-499609L), 14 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Sukhwinder Singh (No. 3387670W now JC-499610A), 14 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bhagwan Singh (No. 3386968N now JC-499611H), 15 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 3385831P now JC-499612L), 28 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mohinder Singh (No. 3385329A now JC-499613N), 22 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Tarlok Singh (No. 3385393X now JC-499614W), 13 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Lakhwinder Singh (No. 3387987L now JC-499615Y), 16 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Bhupinder Singh (No. 3386827Y now JC-499616F), 04 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 22 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mukhtiar Singh (No. 3385591H Now JC-499617K), 27 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Balkar Singh (No. 3385299N Now JC-499618M), 27 Jun 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 29 May 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Mela Singh (No. 3386206A Now JC-499619P), 01 Jul 2005

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Siya Ram Upadhyay (No. 3383962F Now JC-499620K), 01 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Clk Dharambir Sharma (No. 3380632X Now JC-499621M), 05 Jul 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 09 May 2005 without effect on pay & allowances).

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav T Chandrasekhar Naidu (No. 2588299M Now JC-439589Y), 10th Apr 2005

Hav Basavaraj Jogale (No. 2591672M Now JC-439591W), 21st Apr 2005

Hav Kunjumon A (No. 2590544H Now JC-439590N), 26th Apr 2005

Hav D Chellathurai (No. 2590182M Now JC-439593F), 05th May 2005

Hav Gopalakrishnan R (No. 2590211W Now JC-439594K), 05th May 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ujjwal Baran Baidya (No. 2588723K Now JC-439600M), 01st May 2005

Hav Clk Appu P (No. 10165615L Now JC-439601P), 01st May 2005

Hav Clk Ved Prakash (No. 2589078M Now JC-439602X), 28th Jun 2005*

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ramachandra (No. 2588015X Now JC-439567A), 01st Oct 2004

Hav Balasubramonian N (No. 8031665P Now JC-439603A), 01st Nov 2004

Hav P Chima Karuppan (No. 2588036N Now JC-439568H), 30th Nov 2004

Hav Hiremath Vishwanath (No. 2587412K Now JC-439587N), 12th Jul 2005

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15th Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Hav R Panneer Selvam (No. 2592070L Now JC-439604H), 20th Apr 2005

Hav Sudnagar S (No. 2590507P Now JC-439605L), 20th Apr 2005

Hav Boopalan K (No. 2588970X Now JC-439595M), 14th Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Mupudi Veera Brahmachari (No. 2582278A Now JC-439572L), 01st Dec 2004

Hav Prakasan VVK (No. 2588343L Now JC-439573N), 21st Dec 2004

Hav Ashraf KT (No. 2593566M Now JC-439598A), 22nd Dec 2004

Hav ND Palangappa (No. 2586624H Now JC-439574W), 02nd Jan 2005

Hav Raveendran PK (No. 2581754F Now JC-439575Y), 02nd Dec 2005

Hav Basavaraj Mallappa Agsar (No. 2583880M Now JC-439576F), 02nd Feb 2005

Hav K Subramani (No. 2590701K Now JC-439596P), 30th Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26th Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Omanan N (No. 2586767H Now JC-439577K), 07th Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Apr 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar

Nb Sub Jamadar Vinayak Rao Kamagond (JC-439043Y), 01st May 2005

Nb Sub BR Vasudeva Gowda (JC-439044F), 07th Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 07th Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Chandrasekharan P (JC-439049A), 07th Jun 2005

Nb Sub K Gopalakrishnan (JC-439333W), 01st Jul 2005

Nb Sub Basawaraj (JC-438951P), 01st Aug 2005

To be Subedar (Clk)

Nb Sub Clk Rajashekaran P (JC-439066A), 01st Jul 2005

Nb Sub Clk Purushothaman Kannothe Veetil (JC-438961Y), 01st Aug 2005

Nb Sub Clk Labh Singh (JC-438962F), 01st Aug 2005

To be Subedar

Nb Sub Om Ravi (JC-438767K), 03rd Dec 2003

Nb Sub Lokanatha AS (JC-439287M), 17th Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Paulesse TA (JC-439102A), 6 Mar 2005

Nb Sub S Thamil Chelvan (JC-439153N), 25 Mar 2005

Nb Sub Sreedharan K (JC-439063M), 20 Apr 2005

Nb Sub N Raju (JC-439071L), 06 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 20th Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Madhavan TV (JC-438950M), 01st Jun 2005

Nb Sub B Nagaraj (JC-439124Y), 01st Jun 2005

Nb Sub Unnikrishnan V (JC-439207K), 01st Jun 2005

To be Nb Sub

Hav Karunakaran D (No. 2588371X Now JC-439611Y), 01st Mar 2005

Hav B Velayudhan (No. 2589095M Now JC-439612F), 06th Mar 2005

Hav Venkatesulu Naidu B (No. 2591383X Now JC-439617A), 21st Apr 2005

Hav Prethap J (No. 2591321X Now JC-439615P), 23rd May 2005

Hav Tayappa Khot (No. 2592796N Now JC-439616X), 01st Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 23rd May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav V Dasaratha Raju (No. 2589643Y Now JC-439623N), 01st Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav S Eswaran (No. 2589921F Now JC-439624W), 10th Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Aug 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Gulab Singh (JC-439459W), 11 Dec 2004

Nb Sub Keshav Prasad Pandey (JC-439460L), 11 Dec 2004

Nb Sub Rajesh Kumar Sharma (JC-439461N), 19 Feb 2005

Nb Sub Krishna Murti Pandey (JC-439462W), 19 Feb 2005

Nb Sub Sunil Kumar Tamrkar (JC-439463Y), 19 Feb 2005

5 GR(FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Jit Bahadur Gurung (No. 5449960L now JC-617730Y), 01 Apr 2005

Hav Amar Bahadur Pun (No. 5449247N now JC-617731F), 02 May 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 5448974Y now JC-617732K), 02 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 10th April 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Thakur Prasad Gurung (No. 5449950F now JC-617733M), 01 Jun 2005

Hav Aash Bahadur Thapa (No. 5449252Y now JC-617735X), 01 Jul 2005

THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav More Tanaji Bhima (No. 4557709H now JC-569573X), 26 Feb 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004)

Hav Kamble Mahendra Chandrapa (No. 4559035P now JC-569574A), 15 Feb 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004)

Hav Vankande Shivappa Tukaram (No. 4559104A now JC-569575H), 11 Apr 2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2004)

Hav Yashwant Singh (No. 4553519X now JC-569576L), 08 Apr 2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Dec 2004)

Hav Kulveer Singh (No. 4554317K now JC-569577N), 08 Apr 2005###

###(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Dec 2004)

Hav Mahakant Jha (No. 4553241N now JC-569578W), 18 Apr 2005##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Hav Pushkar Singh (No. 4555339P now JC-569579Y), 01 Jan 2005

Hav Chawre Satendra Kumar Nilkanth (No. 4557806A now JC-569580N), 09 Mar 2005\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005)

Hav Prabhunath Yawada (No. 4554787P now JC-569581W), 18 Apr 2005\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2005)

Hav Sant Bir Singh (No. 4561613X now JC-569582Y), 18 Apr 2005%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Feb 2005).

Hav Bharat Singh (No. 4556885N now JC-569583F), 03 Mar 2005%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Feb 2005).

Hav Ahire Ravindra Manik (No. 4557059A now JC-569584K), 01 Mar 2005%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 02Feb 2005).

Hav Alexius Aind (No. 4557865M now JC-569585M), 18 Apr 2005&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 07Feb 2005).

Hav Dilip Dipaji Gaikwad (No. 4557079N now JC-569586P), 07 Mar 2005&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Mar 2005).

Hav Badan Singh (No. 4549971W now JC-569587X), 18 Mar 2005&&&

&&&(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Mar 2005).

Hav Jagzap Shivaji Sidram (No. 4557929M now JC-569588A), 15 Apr 2005*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Mar 2005).

Hav Desai Datagir Rajesaheb (No. 4558782N now JC-569589H), 22 Apr 2005**

**(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Mar 2005).

Hav Janardan Singh Majila (No. 4562145P now JC-569590X), 18 Apr 2005***

*** (Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 06 Mar 2005).

Hav Fareed Amhad Khan (No. 4557207A now JC-569591A), 04 Apr 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01Apr 2005).

Hav Ramdhan (No. 4553660A now JC-569592H), 10 May 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 06 Apr 2005).

Hav Binod Kumar Mishra (No. 4555034P now JC-569593L), 16 May 2005@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 07Apr 2005).

Hav Krishan Kumar (No. 4554480K now JC-569594N), 10 May 2005#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 12 Apr 2005).

Hav Jairaj Bhatt (No. 4553818X now JC-569595W), 02 May 2005##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances w.e.f. 01May 2005).

Hav Yeshwant Rama Singara (No. 4559613Y now JC-569596Y), 01 May 2005

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Raj Kumar (No. 3983541W now JC-412968L), 29 Apr 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2004 without effect on pay & allowances).

Hav Hem Raj (No. 3986063H now JC-412969N), 12 May 2005*	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 03 Feb 2005).
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 2004 without effect on pay & allowances).	Hav/Clk Jawahar Lal Sharma (No. 9417897M now JC-634654N), 01 Mar 2005
Hav Govinda Sharma (No. 13615319P now JC-412970H), 21 June 2005*	Hav Harka Prasad Limbu (No. 9417951P now JC-634655W), 07 Mar 2005
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances).	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Mar 2005).
Hav Pradhan Namdeo Ghinaji SM (No. 13617195K now JC-412971L), 01 Jun 2005*	Hav Bishwa Raj Fombho (No. 9418327H now JC-634656Y), 01 Mar 2005
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Jun 2004 without effect on pay & allowances).	Hav Tilak Bahadur Rai (No. 9418210K now JC-634657F), 01 Mar 2005
CHM Anup Rai (No. 13615916K now JC-412972N), 09 Jul 2005*	Hav Prajit Pradhan (No. 9417742X now JC-634658K), 01 Mar 2005
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).	Hav/Clk Gopal Singh Bisht (No. 9417478P now JC-634659M), 01 Apr 2005
Hav Krishno Das Singha (No. 13614461M now JC-412973W), 09 Jul 2005*	Hav Keshar Bahadur Chamjung (No. 9417737M now JC-634660F), 01 Apr 2005
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).	Hav Bharat Kumar Loktam (No. 9418252W now JC-634661K), 01 Apr 2005
Hav Sudan Singh (No. 13614609A now JC-412974Y), 01 Jul 2005	Hav Deo Prakash Limbu (No. 9417891L now JC-634662M), 03 May 2005
Hav Ramesh Chand (No. 13615742P now JC-412976K), 15 Jul 2005*	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 May 2005).
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).	Hav Dhan Bahadur Rai (No. 9418021A now JC-634663P), 01 Jun 2005
Hav Darshan Lal (No. 13615791X now JC-412977M), 13 Jul 2005*	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 May 2005).
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay & allowances).	Hav Chandra Prasad Gurung (No. 9418215H now JC-634664X), 02 Jul 2005
Hav Ram Kisan Laxman Shinde (No. 13614685M now JC-412979X), 19 Jun 2005*	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 May 2005).
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances).	Hav Dhan Raj Limbu (No. 9418249N now JC-634665A), 01 Jun 2005
Hav Ram Niwas Sakerwar (No. 13614919L now JC-412980M), 01 May 2005	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 May 2005).
To be Nb Sub (CLK),	Hav Narad Mani Rai (No. 9419179P now JC-634666H), 01 Jun 2005
Hav (Clk), Anil Kumar P (No. 13615721Y now JC-412975F), 09 Jul 2005*	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 26 May 2005).
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay & allowances).	Hav Bindra Prasad Rai (No. 9418305K now JC-634667L), 21 Jun 2005
Hav (Clk), Unnikrishnan Nair G (No. 13615722F now JC-412978P), 01 Jul 2005	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Jun 2005).
11GR	Hav Aman Gurung (No. 9420016N now JC-634668N), 13 Jun 2005
To be Nb Sub	(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01 Jun 2005).
Hav /Clk Amar Nath (No. 9417873H now JC-634653L), 19 Feb 2005	

Hav Harish Chandra Rai (No. 9418277H now JC-634669W), 02 Jul 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01Jun 2005).

Hav Dilli Prasad Rai (No. 9418286K now JC-634670L), 02 Jul 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 01Jun 2005).

Hav Ram Prasad Rai (No. 9418096X now JC-634671N), 07 Jul 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allce wef 20 Jun 2005).

Hav Krishna Rai (No. 9417664L now JC-634634A), 01 Feb 2005

Hav Krishna Kumar Pradhan (No. 9417708X now JC-634635H), 01 Feb 2005

Hav Dharmendra Singh Basnet (No. 9420043X now JC-634636L), 01 Feb 2005

Hav Indra Bahadur Limbu (No. 9419130Y now JC-634637N), 01 Feb 2005

Hav Madan Kumar Shrestha (No. 9418388A now JC-634638W), 01 Feb 2005

Hav Madan Kumar Rai (No. 9417932K now JC-634639Y), 19 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Ganga Bahadur Limbu (No. 9417966X now JC-634640N), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Sab Kumar Tamang (No. 9417974W now JC-634641W), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Chaam Karna Shrestha (No. 9418051X now JC-634642Y), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Bhakta Bahadur Thapa (No. 9418041N now JC-634643F), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Bikram Kumar Sunwar (No. 9418084M now JC-634644K), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Ojhi Soni Rai (No. 9418133A now JC-634645M), 08 Apr 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Rudra Bahadur Rai (No. 9418167N now JC-634646P), 28 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Tshering Tamang (No. 9417817K now JC-634647X), 01 Feb 2005

Hav Machindra Bahadur Rai (No. 9417237P now JC-634648A), 01 Feb 2005

Hav Man Bahadur Rai (No. 9418058F now JC-634649H), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Bhoj Kumar Rai (No. 9418042W now JC-634650X), 04 Apr 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

Hav Santa Kumar Rai (No. 9418124Y now JC-634651A), 01 Feb 2005

Hav Chandra Bahadur Tamang (No. 9417153F now JC-634652H), 12 Mar 2005

(Gtd seniority without effect on pay and allowance wef 01Feb 2005).

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Bhuwan Chand (No. 4177522K now JC-539742Y), 02 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

CQMH Chamu Singh (No. 4177925K now JC-539743K), 01 Apr 05

Hav Binod Kumar (No. 4176669N now JC-539787Y), 07 Jun 05/01 Jun 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

CQMH Chandan Singh (No. 4177306W now JC-539785N), 07 Jun 05/01 Jun 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Singh (No. 4177336N now JC-539786W), 13 Jun 05/01 Jun 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Tej Singh Karki (No. 4179075K now JC-539724W), 21 Mar 05/08 Jan 05*

<p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CQMH Khim Singh (No. 4179230A now JC-539732P), 21 Mar 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CHM Manohar Singh (No. 4178864K now JC-539761K), 26 Apr 05/09 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Harish Giri (No. 4176330A now JC-539744K), 17 Mar 05/01 Feb 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Sher Singh (No. 4181919N now JC-539733K), 17 Mar 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Pooran Chandra Palariya (No. 4182219N now JC-539745M), 01 Apr 05</p> <p>Hav Ram Singh Basera (No. 4182924L now JC-539746P), 01 Apr 05</p> <p>Hav Gopal Singh, SM (No. 14701203Y now JC-539762M), 10 May 05/01 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CHM Mohan Singh (No. 4177406F now JC-539729P), 12 Mar 05/01 Feb 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Kailash Chandra (No. 4178672M now JC-539749H), 21 Apr 05/01 Apr 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Durga Singh (No. 4181934H now JC-539748A), 21 Apr 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Lalit Mohan Khati (No. 4183310P now JC-539747P), 21 Apr 05/01 Feb 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Harsh Singh Shehi (No. 4178688X now JC-539778X), 18 Jun 05/01 Apr 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)</p>	<p>Hav Jeet Singh Gobari (No. 4178712H now JC-539779A), 18 Jun 05/01 Apr 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CQMH Dharmender Kumar (No. 4174620Y now JC-539726F), 14 Mar 05/12 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Rajendra Singh (No. 4176523A now JC-539727K), 14 Mar 05/12 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CQMH Jagdish Chandra (No. 4174559A now JC-539725Y), 14 Mar 05/12 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Keshar Singh (No. 4182450P now JC-539763P), 25 Apr 05/12 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Arjun Singh (No. 4182419H now JC-539728P), 14 Mar 05/12 Jan 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Khushal Singh (No. 14701517A now JC-539750P), 04 Apr 05/01 Feb 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CHM Bhim Singh (No. 4177789Y now JC-539736L), 14 Mar 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>RPHM Rajender Singh Rana (No. 4177283A now JC-539735H), 14 Mar 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>Hav Laxman Singh (No. 4176570X now JC-539724A), 14 Mar 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CHM Laxman Singh (No. 4176808M now JC-539751A), 04 Apr 05/01 Mar 05*</p> <p>*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)</p> <p>CHM Kundan Singh (No. 4177324Y now JC-539788F), 01 Jun 05</p>
---	--

CHM Surya Bali (No. 4181265P now JC-539764X), 02 May 05/29 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rameshwar (No. 4175291A now JC-539765A), 02 May 05/29 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ranvir Singh (No. 4181604K now JC-539766H), 02 May 05/01 May 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sunder Singh (No. 4180163M now JC-539730K), 05 Mar 05/01 Feb 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Dhami (No. 4180494N now JC-539731M), 22 Mar 05/01 Feb 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Chand Yadav (No. 4179995F now JC-539752H), 02 Apr 05/01 Feb 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Manohar Singh Kharayat (No. 4180581F now JC-539737N), 15 Mar 05/01 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Soban Singh Bisht (No. 4178235M now JC-539767L), 01 May 05

Hav Mahabir Singh (No. 4174573M now JC-539775K), 10 Apr 05/01 Jan 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhawan Singh (No. 4176513W now JC-539722L), 24 Feb 05/09 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

RPHM Laxman Singh (No. 4179953Y now JC-539723N), 24 Feb 05/28 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Trilok Singh (No. 4177476A now JC-539768N), 30 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Chandra Nainwal (No. 4179207M now JC-539769W), 30 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Harish Chandra Kapri (No. 4177746K now JC-539770L), 30 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Rirmal Singh (No. 4180114K now JC-539781X), 09 Jun 05/01 May 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

CQMH Om Singh (No. 4174114M now JC-539720A), 01 Feb 05/03 Oct 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Chand (No. 4178118F now JC-539721A), 01 Feb 05/03 Oct 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Lalita Prasad Pant (No. 4176792M now JC-539771N), 04 May 05/01 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Shri Bhagwan (No. 4176779H now JC-539790P), 16 May 05/05 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Nandan Singh (No. 4178602N now JC-539777P), 07 Jun 05/05 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Narender Singh (No. 4178153K now JC-539753L), 01 Apr 05

Hav Chandan Singh (No. 4178132N now JC-539754N), 01 Apr 05

Hav Chander Singh Kiraula (No. 4177851A now JC-539772W), 01 Apr 05/07 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Jagat Singh (No. 4177958P now JC-539755W), 10 Feb 05/07 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

CHM Attar Singh (No. 4175436A now JC-539756Y), 30 Mar 05/09 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan Shyam (No. 4180411X now JC-539757F), 30 Mar 05/09 Mar 05*

THE NAGA REGIMENT

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

RPHM Trilok Singh (No. 4175974N now JC-539738W), 12 Mar 05/01 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Nanda Ballabh (No. 4176274M now JC-539758K), 01 Apr 05

CQHM Anand Singh (No. 4176704L now JC-539782A), 01 May 05

CHM Jai Prakash Yadav (No. 4180533F now JC-539783H), 20 May 05/01 May 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Deb Singh (No. 4175020H now JC-539773Y), 05 May 05/13 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Veer Singh Yadav (No. 4176683A now JC-539739X), 21 Mar 05/01 Mar 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sube Singh (No. 4176822Y now JC-539776M), 01 Mar 05/01 Feb 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Dan Singh (No. 4177144W now JC-539740W), 25 Feb 05/01 Jan 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jaman Singh (No. 4175831N now JC-539759M), 04 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Singh (No. 4177241N now JC-539760F), 05 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Diwan Singh (No. 4176426H now JC-539774F), 01 May 05/03 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Santosh Kumar (No. 4176739F now JC-539784K), 20 Jun 05/01 May 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Thritongchem Sangtam (No. 14701428F now JC-590163P), 09 Mar 05/01 Jan 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

CHM Arjun Singh (No. 14701225X now JC-590164X), 26 Apr 05/01 Apr 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Virendra Singh Thapa (No. 14701011F now JC-590165A), 17 Jun 05/01 Jun 05*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Pan Singh (No. 4175766Y now JC-590161Y), 08 Dec 04/01 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Man Singh Rana (No. 14700881M now JC-590162M), 08 Dec 04/01 Dec 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sitiban Thangal (No. 14701804K now JC-590159M), 10 Jan 05/13 Nov 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav WS Wanglel Anal (No. 14702410X now JC-590160F), 18 Feb 05/13 Nov 04*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

THE GARHWAL RIFLES

To be Sub Maj

Sub Jaipal Singh (JC-528438P), 01 Jan 2005

Sub Ranjit Singh (JC-528091M), 01 Jan 2005

Sub Ramesh Prasad (JC-528341K), 01 Feb 2005

Sub Balwant Singh (JC-528549M), 01 Feb 2005

Sub Narendra Singh (JC-528451Y), 01 Feb 2005

Sub Rajendra Singh (JC-528580Y), 23 Feb 2005

Sub Khushal Singh Rawat (JC-528532Y), 01 Mar 2005

Sub Mahima Nand (JC-528093Y), 01 Mar 2005

To be Sub

Nb Sub Chaman Singh (JC-529286L), 01 Aug 2004

Nb Sub Man Singh (JC-529346P), 01 Aug 2004

Nb Sub Sita Ram (JC-529357F), 01 Aug 2004

Nb Sub Rajendra Singh (JC-529287N), 01 Sep 2004
 Nb Sub Satch Singh (JC-529374F), 01 Sep 2004
 Nb Sub Mohan Singh (JC-529376M), 01 Sep 2004
 Nb Sub Balwant Singh (JC-529384L), 20 Sep 2004
 Nb Sub Shiv Singh Negi (JC-529399N), 01 Oct 2004
 Nb Sub Hira Singh (JC-529429A), 01 Oct 2004
 Nb Sub Bijender Singh (JC-529379A), 09 Oct 2004
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-529065Y), 30 Oct 2004
 Nb Sub Prem Singh (JC-529382A), 01 Nov 2004
 Nb Sub Yashwant Singh (JC-529380P), 01 Nov 2004
 Nb Sub Darpan Singh (JC-529359M), 01 Dec 2004
 Nb Sub Ranbir Singh (JC-529390Y), 01 Dec 2004
 Nb Sub Narain Singh (JC-529401A), 01 Dec 2004
 Nb Sub Sambhu Prasad (JC-529403L), 01 Dec 2004
 Nb Sub Charan Singh (JC-529412M), 01 Dec 2004
 Nb Sub Bijay Singh (JC-529427P), 01 Dec 2004
 Nb Sub Raje Singh (JC-529437Y), 01 Dec 2004
 Nb Sub Brij Mohan (JC-529491M), 01 Dec 2004
 Nb Sub Surat Singh (JC-529492P), 01 Dec 2004
 Nb Sub Pritam Singh Rawat (JC-529494A), 01 Dec 2004
 Nb Sub Satendra Singh Rawat (JC-529495H), 01 Dec 2004
 Nb Sub Gobind Singh (JC-529497N), 01 Dec 2004
 Nb Sub Mahabir Singh (JC-529485Y), 01 Dec 2004
 Nb Sub Mahabir Singh (JC-529504Y), 01 Dec 2004
 Nb Sub Prem Singh (JC-529506K), 01 Dec 2004
 Nb Sub Tejpal Singh (JC-529406Y), 25 Dec 2004
 Nb Sub Bir Singh (JC-529103K), 01 Jan 2005
 Nb Sub Kunwar Singh (JC-529220P), 01 Jan 2005
 Nb Sub Kamal Singh (JC-529221X), 01 Jan 2005
 Nb Sub Madho Singh (JC-529331M), 01 Jan 2005
 Nb Sub Pushkar Singh (JC-529481H), 01 Jan 2005
 Nb Sub Surat Singh (JC-529132Y), 09 Jan 2005
 Nb Sub Mahipal Singh (JC-529222A), 01 Feb 2005
 Nb Sub Bhupender Singh (JC-529338W), 01 Feb 2005
 Nb Sub Kundan Singh (JC-529332P), 01 Feb 2005
 Nb Sub Bir Singh (JC-529385N), 01 Feb 2005
 Nb Sub Ram Kishan (JC-529431X), 01 Feb 2005
 Nb Sub Sarita Nand (JC-529514H), 01 Feb 2005
 Nb Sub Harchandra Singh (JC-529448L), 01 Feb 2005
 Nb Sub Govind Singh (JC-529488M), 01 Feb 2005

Nb Sub Mahesh Singh Bisht (JC-529408K), 25 Feb 2005
 Nb Sub Sangram Singh (JC-529198P), 01 Mar 2005
 Nb Sub Mahendra Prasad (JC-529601W), 01 Mar 2005
 Nb Sub Prem Singh (JC-529252X), 08 Mar 2005
 Nb Sub Mohan Singh (JC-529276F), 09 Mar 2005

To be Sub (Cik)

Nb Sub (Cik) Jeet Singh Panwar (JC-528981N), 01 Feb 2005

To be Nb Sub

Hav Om Parkash (No. 4064111X now JC-529885L), 01 Apr 2005

Hav Kamla Pati (No. 4064669M now JC-529886N), 20 Jun 2005/05 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kishna Nand (No. 4062454P now JC-529887W), 30 Jun 2005/17 Apr 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Prakash (No. 4064341L now JC-529888Y), 20 Apr 2005

Hav Shiv Singh (No. 4065490L now JC-529889F), 06 Jun 2005/01 May 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Charan (No. 4067319L now JC-529890W), 15 Jun 2005/01 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Amar Chand (No. 4065622N now JC-529891Y), 15 Jun 2005/01 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Kishore (No. 4062586H now JC-529892F), 15 Jun 2005/01 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Trepan Singh (No. 4065608F now JC-529893K), 01 Jun 2005

Hav Yashdip Singh (No. 4065932Y now JC-529894N), 27 Jun 2005/05 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Girivan Singh Jayara (No. 4066799N now JC-529895P), 27 Jun 2005/05 Jun 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bharpur Singh (No. 4064410L now JC-529896X),
01 Jul 2005

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Samunder Singh (No. 2880497F now JC-469745M),
27 Mar 2005/01 Sep 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004
without effect on pay and allowances)

Hav Sohan Singh (No. 2879021H now JC-469746P), 01
Dec 2004

Hav Rajbir Singh (No. 2879075K now JC-469747X), 18th
Apr 2005/09 Dec 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Dec 2004
without effect on pay and allowances)

Hav Udaihir Singh (No. 2879044K now JC-469748A),
01 Mar 2005

Hav Khurshid Ahmed (No. 2881391F now JC-469749H),
01 Apr 2005

Hav Hasan Nawab (No. 2880122H now JC-469750X), 15
Apr 2005

Hav Hawa Singh (No. 2879172F now JC-469751A), 01
May 2005

Hav Anoop Singh (No. 2883437X now JC-469752H), 10
May 2005

Hav Bachhu Singh (No. 2882680H now JC-469753L), 10
May 2005

Hav Akhtar Khan SM (No. 2879082A now JC-469754N),
01 Jun 2005

Hav Fal Singh Verma (No. 2879158P now JC-469755W),
01 Jun 2005

Hav Salauddin (No. 2880354F now JC-469756Y), 01 Jun
2005

Hav Virender Singh (No. 2880777P now JC-469757F),
01 Jun 2005

Hav Subhash Chand (No. 2883759X now JC-469758K),
01 Jun 2005

Hav Joginder Singh (No. 2877795M now JC-469759M),
02 Jun 2005

Hav Niwas Ram (No. 2883838M now JC-469760F), 05
Jun 2005

Hav Asar Khan (No. 2881170P now JC-469761K), 01 Jul
2005

Hav Suraj Singh (No. 2879697L now JC-469762M), 01
Jul 2005

Hav Jai Singh (No. 2879836K now JC-469763P), 01 Jul
2005

THE RAJ RIF

To be Substantive Subedar Major

Sub Ram Phal Singh Sahu (JC-212583K), 01 May 2003

Sub Suresh Singh Chauhan Yadunath Singh Chauhan (JC-
204275P), 09 May 2003

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2003
without effect on pay and allowances)

Sub/Clk Sasidharan N (JC-468213A), 01 May 2003

Sub Hoshiar Singh (JC-204042N), 22 Jul 2003

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2003
without effect on pay and allowances)

Sub Chander Bhan (JC-212587A), 01 Jun 2003

Sub Attar Singh Rath (JC-218239P), 01 Aug 2003

Sub Rishal Singh (JC-204037H), 21 Dec 2003

Sub Jagdish Singh (JC-468296W), 01 Dec 2003

Sub Durag Singh (JC-468153W), 01 Dec 2003

Sub/Clk Om Prakash (JC-468277L), 01 Dec 2003

Sub Sardar Singh (JC-216782P), 01 Mar 2004

Sub Nihal Chand Jat (JC-468058K), 01 Apr 2004

Sub Shishu Pal Singh (JC-468149N), 12 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Sadhu Ram Indolia (JC-218463F), 01 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Harender Kumar Singh (JC-224391Y), 10 Apr 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Ram Kishan (JC-220924Y), 14 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Dharambir Singh (JC-468121N), 23 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2004
without effect on pay and allowances)

Sub/Clk Madan Singh Tanwar (JC-468307X), 10 May
2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2004
without effect on pay and allowances)

Sub Jai Singh (JC-204044Y), 01 Jun 2004

Sub Bhim Singh Chauhan (JC-468222F), 01 Jul 2004

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Harvir Singh (No. 2884532W now JC-469764X), 02
Feb 2005

Hav Manjit Singh (No. 2893366P now JC-469765A) 01 Apr 2005

Hav/Clk Hem Raj Singh Chandrawat (No. 2881295M now JC-469766H) 09 Jun 2005/01 Jun 2005)*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Shri Pal Singh (No. 2878665W now JC-469767L), 01 Jun 2005

Hav Bhagmal (No. 2884110L now JC-469768N) 01 Jun 2005

Hav Pooran Singh Raghav (No. 2881104M now JC-469769W), 01 Jun 2005

Hav Arjun Singh (No. 2879297Y now JC-469770L), 01 Jun 2005

Hav Jangveer Singh (No. 2880754N now JC-469771N), 01 Jun 2005

Hav Pappu Singh Parmar (No. 2879876L now JC-469772W), 04 Jun 2005

Hav Suresh Kumar Kadyan (No. 2877955F now JC-469773Y), 01 Jul 2005

Hav Bijender Singh (No. 2880418F now JC-469774F), 01 Jul 2005

Hav Annu Singh (No. 2879798Y now JC-469775K), 01 Jul 2005

Hav Balbir Singh (No. 2875880W now JC-469776M), 03 Aug 2005/01 Jul 2005*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Girdhar Singh (No. 2879390A now JC-469777P), 03 Jul 2005

Hav Chhotu Ram (No. 2880787Y now JC-469778X), 03 Jul 2005

Hav Moti Ram (No. 2878906L now JC-469779A), 27 Jul 2005

Hav Balraj (No. 2880731M now JC-469780P), 09 Aug 2005

Hav Ram Babu (No. 2878676H now JC-469781X), 09 Aug 2005

Hav Prabhu Singh Chundawat (No. 2880830P now JC-469782A), 01 Sep 2005

Hav Uday Singh Tomar (No. 2880407P now JC-469783H), 01 Sep 2005

THE RAJPUT REGIMENT

To be Sub Maj Clk

Sub Maj Clk Rakesh Kumar Sharma (JC-478283M), 03 Aug 2005

To be Sub Maj

Sub Maj Santosh Singh Chauhan (JC-478080H), 09 May 2005

Sub Maj Bhagwan Singh Gurjar (JC-478206X), 01 Jun 2005

Sub Maj Ram Pal Singh, VrC (JC-478569F), 09 Jul 2005

Sub Maj Balbir Singh (JC-478398A), 01 Aug 2005

To be Sub Clk

Sub Clk Brij Gopal Singh (JC-478907M), 01 Mar 2005

To be Sub

Sub Vishwa Nath Singh (JC-479008Y), 01 Aug 2004

Sub Nand Lal Singh Yadav (JC-479103L), 01 Oct 2004

Sub Satya Prakash (JC-479230A), 01 Oct 2004

Sub Bhim Singh (JC-479231H), 01 Oct 2004

Sub Jal Singh (JC-479227A), 01 Nov 2004

Sub Sumesh Kumar (JC-478918A), 14 Nov 2004

Sub Bahoran Singh (JC-479248W), 01 Dec 2004

Sub Ved Pal (JC-479028M), 01 Jan 2005

Sub Shiv Ram Singh Tanwar (JC-479087Y), 01 Jan 2005

Sub Rishi Raj (JC-479162X), 01 Jan 2005

Sub Rakesh Kumar Singh (JC-479169F), 23 Jan 2005

Sub Sona Ram Gurjar (JC-479012F), 01 Feb 2005

Sub Gurmail Singh (JC-479000M), 22 Feb 2005

Sub Rameshwar Singh (JC-479040N), 01 Mar 2005

Sub Rajendra Singh (JC-479205F), 23 Mar 2005

Sub Har Bhajan (JC-478841H), 01 Apr 2005

Sub Moti Singh (JC-479124F), 01 May 2005

Sub Charat Ram (JC-479214H), 01 May 2005

Sub Jaipan Singh (JC-479034A), 04 May 2005

Sub Ram Swaroop Bagoria (JC-479215L), 25 May 2005

Sub Sansar Singh (JC-479264N), 01 Jun 2005

Sub Jagdish Kumar (JC-479140Y), 01 Jun 2005

Sub Rajendra Singh (JC-479283Y), 01 Aug 2005

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Khatri Ajit Kumar Kanaiya Lal (No. 2684239P now JC-449951H), 24 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Dev Karan Meena (No. 2679897X now JC-449952X), 16 Dec 2004

Hav Shri Bhagwan (No. 2676981M now JC-449953A), 15 Feb 2005

Hav Udaivir Singh (No. 2679186X now JC-449954H), 12 Mar 2005

Hav Roshan Lal (No. 2674815A now JC-449955L), 01 Apr 2005

Hav Harish Chandra Singh (No. 8031610L now JC-449956N), 01 Apr 2005

Hav Mahender Singh (No. 2677296M now JC-449957W), 03 Apr 2005

Hav Kamal Singh (No. 2674445L now JC-449958Y), 06 Apr 2005

Hav Raghuvir Singh (No. 2674625N now JC-449959F), 07 Apr 2005

Hav Rishi Parkash (No. 2678379L now JC-449960W), 07 Apr 2005

Hav Ravinder (No. 2676871X now JC-449961Y), 20 Apr 2005

Hav Santosh Singh (No. 2676016H now JC-449962F), 23 Apr 2005

Hav Raj Kumar (No. 2677141Y now JC-449963K), 01 May 2005

Hav Raj Pal (No. 2677886M now JC-449964M), 01 May 2005

Hav Islam Ali Khan (No. 2677178A now JC-449965P), 04 May 2005

Hav Awadhes Pratap Singh (No. 2682132F now JC-449966X), 04 May 2005

Hav Bhanwar Singh (No. 2680572W now JC-449967A), 07 May 2005

Hav Sube Singh (No. 2679594H now JC-449968H), 10 May 2005

Hav Mohd Tahseen (No. 2677386P now JC-449969L), 10 May 2005

Hav Karan Singh (No. 2677027F now JC-449970A), 11 May 2005

Hav Mohd Islam (No. 2677357A now JC-449971H), 01 Jun 2005

Hav Girdhari Lal Jat (No. 2677493W now JC-449972L), 01 Jul 2005

Hav Balbir Singh (No. 2677095P now JC-449973N), 01 Jul 2005

Hav Jeewan Ram (No. 2680652N now JC-449974W), 01 Jul 2005

Hav Ganesh Singh (No. 2676610K now JC-449975Y), 01 Jul 2005

Hav Chavda Pratap Bhai Jagmal Bhai (No. 2683873L now JC-449976F), 01 Jul 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Dharam Singh Jakhar (No. 2679148F now JC-449977K), 01 Jul 2005

Hav/Clk Samarendra Nayak (No. 2684100X now JC-449978M), 01 Jul 2005

Hav/Clk Sukhdev Prashar (No. 2677312A now JC-449979P), 01 Jul 2005

JAK RIF

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Kamal Kishore (JC-578729L) Jak Rif, 01 May 2005

Sub Ranjit Singh Samyal (JC-579078M) Jak Rif, 01 May 2005

Sub Karpal Singh (JC-578875L) Jak Rif, 01 Jun 2005

Sub Pargat Singh (JC-578694A) Jak Rif, 01 Jul 2005

Sub Krishna Bahadur Thapa (JC-578635N) Jak Rif, 01 Jul 2005

Sub Ramesh Thapa (JC-578531M) Jak Rif, 01 Aug 2005

Sub Shiv Singh (JC-578394Y) Jak Rif, 01 Aug 2005

Sub Paramjit Singh (JC-578701L) Jak Rif, 01 Aug 2005

Sub Sudarshan Kumar Sharma (JC-579090N) Jak Rif, 01 Aug 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Darshan Lal (JC-579350N) Jak Rif, 16 Jun 2003

Nb Sub Jamal Din (JC-579104H) Jak Rif, 01 Oct 2003

Nb Sub Nanak Chand (JC-579410X) Jak Rif, 01 Oct 2003

Nb Sub Dalvir Singh (JC-579424X) Jak Rif, 01 Jan 2004

Nb Sub Paramjit Singh (JC-579638N) Jak Rif, 01 Dec 2004

Nb Sub Sham Lal (JC-579722N) Jak Rif, 01 Jan 2005

Nb Sub Raj Kumar (JC-579612Y) Jak Rif, 01 Feb 2005

Nb Sub Romesh Chander (JC-579529F) Jak Rif, 01 Mar 2005

Nb Sub Ved Parkash (JC-579532F) Jak Rif, 01 Mar 2005

Nb Sub Ramesh Chand Chaudhary (JC-579524H) Jak Rif, 10 Apr 2005

Nb Sub Des Raj (JC-579537A) Jak Rif, 01 May 2005

Nb Sub Shankar Dass Sharma (JC-579548M) Jak Rif, 01 May 2005

Nb Sub Ashwani Kumar Rana (JC-579525L) Jak Rif, 01 May 2005

Nb Sub Krishan Singh (JC-579591N) Jak Rif, 01 May 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-579138W) Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Darshan Kumar (JC-579655N) Jak Rif, 01 Jun 2005

Nb Sub Uttam Singh (JC-579526N) Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Charan Singh (JC-579656W) Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Bachan Lal (JC-579580F) Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Durga Prasad Thapa (JC-578559W) Jak Rif, 13 Jul 2005

Nb Sub Rattan Chand (JC-579586H) Jak Rif, 05 Aug 2005

To be Substantive Sub (GD) Clk

Nb Sub Clk Rattan Lal Mottera (JC-579144K) Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Clk Purushothaman MP (JC-579213Y) Jak Rif, 01 Jul 2005

Nb Sub Clk Karan Singh Katal (JC-579214X) Jak Rif, 01 Jul 2005

DIWAKAR
Under Secy.

No. 559, dated 31st October 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

M Kesavan (MR-02248H), 02 Apr 2003 (with national seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2003.)

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

VR Deshpande (MR-03726N), 19 Feb 2005 (with notional seniority without effect on pay and pension from 03 Nov 2004).

G Ramadas (MR-03301P), 27 Feb 2005 (with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2005).

R KAMRAN
Brig
Dy DGAfMS (P)

No. 560, dated 28 Oct 2005.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Capt to be MAJ

Name, IC No. & Arm

Sudip Mitra (IC-46890), Arty

—27 Oct 2002—

(But pay & Allowance wef 27 Oct 2003)

Sunil Kumar Chandran (IC-54829), Arty

—06 Nov 2003—

Rajinder Singh (IC-42067), ASC

Anil Kumar (IC-54334), Inf

Datta Tarunesh (IC-54358), ASC

Shiv Balak Mishra (IC-54408), Inf

Subhash Chander (IC-54467), Mech/Inf

Vipin Raj Singh Sirohi (IC-54492), AC

Shivendra Singh (IC-54558), Inf

—16 Dec 2004—

Gaurav Singh (IC-58599), EME

Yogesh Kumar Singh (IC-58613), Sigs

Anuresh Sharma (IC-58613), Sigs

Rohit Chittoria (IC-58621), EME

Naveen Suri (IC-58635), EME

Mayank Chauhan (IC-58649), EME

Patil Amod Suresh (IC-58685), EME

Amrik Singh Sidhu (IC-58703), Sigs

Englesh Pal Singh (IC-58717), Sigs

Anurag Belari Mathur (IC-58721), EME

Ravti Kumar Vaid (IC-58733), EME

Tanuj Seth (IC-58748), AC

Anand Singh (IC-58753), EME

Vaka Sudhakar Reddy (IC-58767), EME

Abhishek Singh Rana (IC-58783), Sigs

Sachin Sood (IC-58808), EME

Anil Bahuguna (IC-58818), Sigs

Meshram Nitin Jaideorao (IC-58868), EME

Suparna Kumar Mohanty (IC-58879), EME

Shailendra Dhar (IC-58891), EME

Gurmeet Singh Kainth (IC-58916), Engrs

Rohit Puri (IC-58933), Sigs

K Aravindan (IC-58935), EME

—12 Jun 2005—

REGIMENTAL COMMISSION

Capt to be Maj

RC No. Name & Arm

Jaswant Singh (RC-00817), Inf

Prabhu Dayal (RC-00881), Inf

—03 Dec 2004—

SPECIAL COMMISSION

Capt to be Maj

Mohinder Lal (SC-00085), Inf

Upendra Kumar Singh (SC-00112), Inf

Girish Kumar Singh (SC-00125), ASC

—16 Dec 2004—

PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

Anil Kandari (No. 4594), ASPT

—23 Apr 2003—

SS Gadkari (No. 4663), SL/APTC

—13 Jun 2004—

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

(Special List)

(4740), Capt Rajbir Singh, TEO AD Arty, 16 Dec 2004

CHANDER PARKASH

Dy Dir

MS-8C

CORRIGENDUM

No. 561, dated 28 October 2005—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission",

and sub heading "Capt to Maj" the following amendment is made:—

For : S Mitra (IC-46890), Arty

Read : Blank

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to Maj" the following amendment is made:—

For : Sunil Kumar Chandran (IC-54829), Arty

Read : Blank

CHANDER PARKASH

Dy Dir

MS-8C

No. 562, dated 26 Oct 2005—In Ministry of Defence Notification No. 25 dated 18 Jun 2005 published in Gazette of India No. 295, dated 25 May 2005 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below 'to be Substantive Risaldar' Page No. 904 and below 'to be Nb Ris' Page No. 904.

To be Substantive Risaldar

(a) For

Risaldar Hoshiyar Singh (JC-238902P), 01 Oct 2004

(b) Read

Risaldar Hoshiyar Singh (JC-238802P), 01 Oct 2004

To be Nb Ris

(a) For

Dfr Amba Prasad (No. 1068015X now JC-241222N), 12 Feb 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

(b) Read

Dfr Amba Prasad (No. 1068015X now JC-241222N), 22 Feb 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

JOSE THOMAS

Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.